

गौरवशाली भारत



वर्ष : 12
अंक : 15
पृष्ठ : 08
नई दिल्ली
रविवार 31 जुलाई 2022
मूल्य : 1.50/-
RNI No .DELHIN/2011/38334

नई दिल्ली से प्रकाशित

RNI No .DELHIN/2011/38334

मुख्य आर्दे

पेज 3

भाजपा गुजरात की तरह दिल्ली में भी नकली शराब बेचना चाहती है इसलिए अफसरों और दुकान वालों को दे रही है ईडी-सीबीआई की

पेज 5

माफिया अतीक के बेटे अली ने कोर्ट में किया सरंदेश, 50 हजार का था इनाम

पेज 7

युके के नए पीएम की रैस में पिछड़ रहे ऋषि सुनक, मंडरा राह हार का खतरा

9 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

यूपी के 29 जिलों में आज होगी भारी बारिश; जम्मू में 30 लोगों का आर्मी ने किया रेस्क्यू

एजेन्सी

नई दिल्ली। देश के कई राज्यों में बारिश से जान-माल को काफी नुकसान पहुंचा है। पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश सहित उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत के कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और उत्तर भारत के 6 राज्यों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है।

हिमाचल में बारिश के दौरान डूबने, लैंडस्लाइड, सड़क हादसे में



अब तक 133 लोगों की मौत हो चुकी है। एक महीने में यहां 450 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। उत्तराखंड के नैनीताल में शुरुआत को लैंडस्लाइड हुआ। वहीं, जम्मू में जल स्तर बढ़ने के

बाद पुंछ नदी में फंसे 30 लोगों को आर्मी ने रेस्क्यू किया है।

यूपी : 29 जिलों में आज तेज बारिश

यूपी के 29 जिलों में आज तेज बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। राजधानी लखनऊ में सुबह से ही तेज पानी बरस रहा है। अयोध्या, शामली, सहारनपुर, कासगंज, मैनपुरी, अमेठी, जौनपुर सहित 29 जिलों में आज दिनभर रुक-रुक कर तेज बारिश होगी। यहां गरज-चमक के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी। पिछले 24 घंटों की

बात करें तो कानपुर में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है।

जम्मू-कश्मीर : पुंछ नदी में फंसे लोगों का आर्मी ने किया रेस्क्यू

जम्मू कश्मीर के अखनूर में चिनाब नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और निचले इलाकों में बाढ़ आने की संभावना बनी हुई है। पुंछ जिले में अचानक आई बाढ़ में 30 लोग फंस गए, जिसके बाद सेना ने बचाव अभियान शुरू किया। स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स और पुलिस के मदद से इनकी जान बचाई गई।

उत्तरप्रदेश : बाराबंकी में सड़क हादसे में 5 की मौत

सड़क हादसे में 5 की मौत

दो बाइक सवारों को पिकअप ने मारी टक्कर, महादेवा दर्शन करने जा रहे थे

सीएम ने हादसे पर जताया दुःख

सीएम योगी ने बाराबंकी में हुए सड़क हादसे में जनहानि पर गहरा शोक प्रकट किया है। उन्होंने दिवंगतों की आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है।



बाराबंकी। बाराबंकी में एक पिकअप ने दो बाइक पर सवार 5 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में पांचों की मौत हो गई। पिकअप टक्कर मारने के बाद सभी को रौंदा हुआ फरार हो गया। मरने वालों में 2 युवक महादेवा दर्शन के लिए जा रहे थे। वहीं 3 युवक दुकान पर खाद रखवाने जा रहे थे। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने पिकअप वाहन समेत चालक

को गिरफ्तार कर लिया है। परिवार के लोग मौके पर पहुंच चुके हैं। हादसा बाराबंकी जिले में मसौली थाना क्षेत्र अंतर्गत बिंदौरा गांव में दोपहर में हुआ है।

मदिर दर्शन के लिए जा रहे थे सभी

राहगीरों ने बताया, जब हम लोग बाराबंकी-बहराइच हाईवे पर पहुंचे तो

सभी युवकों के शव दूर-दूर पड़े हुए थे। जिससे पता लग रहा था कि टक्कर कितनी जोरदार रही होगी। बता दें कि इस हादसे में जिन पांच लोगों ने दम तोड़ा है, उनमें पंकज मिश्रा (36) पुत्र विजय प्रकाश मिश्रा, प्रशांत दुबे पुत्र लक्ष्मीकांत, दीपक गौतम (28) पुत्र मेवालाल, अभिषेक गौतम (18) पुत्र राजेश गौतम और शिवकर गौतम (32) पुत्र माता प्रसाद शामिल हैं। घटना की जानकारी होते ही बाराबंकी पुलिस अधीक्षक अनुराग बाद मौके पर पहुंचे। मरने वालों में दीपक,

अभिषेक और शिवकर गौतम शामिल हैं।

सुबह घर से निकले थे तीनों भाई

दीपक, अभिषेक और शिवकर गौतम के परिवार के लोगों ने बताया, ये तीनों लोग सुबह ही घर से खाद लेकर दुकान के लिए निकले थे। बारिश होने के कारण तीनों को रोका गया लेकिन उसके बाद भी ये लोग चले गए। जानते थे लोग बच जाते। वहीं पंकज और प्रशांत के परिवार का कहना है कि ये लोग जलकर लेकर महादेवा पर चढ़ाने जा रहे थे।

देश में कोरोना के 20,408 नए मामलों की पुष्टि

नयी दिल्ली। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के 20,408 नए मामले सामने आने के साथ संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 44000138 हो गयी और 44 और मरीजों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 526312 हो गया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शनिवार को यहां बताया कि सुबह सात बजे तक 203.94 करोड़ टीके दिये जा चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 33,87,173 टीके लगाए गए हैं।

मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 20,958 लोगों के टीके होने के साथ स्वस्थ होने वालों की

कुल संख्या बढ़कर 4,33,30,442 हो गई है। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आने के साथ साप्ताहिक संक्रमण दर 4.92 प्रतिशत हो गयी है, जबकि दैनिक संक्रमण 5.05 फीसदी है। रिकवरी दर 98.48 प्रतिशत और मृत्यु दर 1.20 प्रतिशत है।

पिछले 24 घंटे में 4,04,399 कोविड परीक्षण किये गये हैं और अब तक कुल 87.48 करोड़ से अधिक कोविड परीक्षण किए जा चुके हैं।

देश में इस अवधि में 37 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में से जहां 17 राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में कोरोना सक्रिय मामलों में कमी आयी वहीं 20 में सक्रिय मामलों में बढ़ाव है।

203.94 करोड़ से अधिक टीके लगे

देश भर में राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 203.94 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शनिवार को यहां बताया कि आज सुबह सात बजे तक दो अरब तीन करोड़ 94 लाख 33 हजार 480 टीके दिये जा चुके हैं। मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में कोविड संक्रमण के 20 हजार 408 नये मरीज सामने आये हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 44000138 हो गयी।

बैंक धोखाधड़ी : सीबीआई ने जल्द किया अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर

एजेन्सी

नई दिल्ली। भारत की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी रु 34,000 करोड़ के दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड घोटाला मामले में सीबीआई की टीम ने पुणे में एक बिल्डर की संपत्ति से अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर जब्त किया है। सीबीआई की टीम को डीएचएफएल घोटाले के आरोपी अविनाश भोंसले के बड़े आलीशान



हॉल के अंदर हेलीकॉप्टर मिला। सीबीआई ने अविनाश भोंसले को

बोटी 26 मई को गिरफ्तार किया था। सीबीआई के अधिकारियों ने

शनिवार को कहा कि टीम पिछले कुछ दिनों से कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है ताकि घोटाले की आय से अर्जित संपत्ति का पता लगाया जा सके। डीएचएफएल के पूर्व शीर्ष अधिकारियों कपिल वधावन, दीपक वधावन और अन्य पर सीबीआई ने 20 जुन को बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोप लगाए थे।

सीबीआई के मुताबिक, आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर यूनिवर्स बैंक

ऑफ इंडिया के नेतृत्व में 17 बैंकों के एक संघ को डीएचएफएल की फर्जी खाता बही में 34,615 करोड़ बैंक ऋण देकर धोखा दिया।

फिर उन्होंने फर्जी संस्थाओं को नकली खुदरा ऋण देकर डीएचएफएल में सार्वजनिक धन की चोरी करने के लिए कथित तौर पर शेल कंपनियों और एक समानांतर लेखा प्रणाली, जिसे बांदा बुक्स के रूप में जाना जाता है, का इस्तेमाल किया।

भारत में मंकीपॉक्स के दो नए संदिग्ध केस, आठ साल के बच्चे और विदेशी का लिया गया सैपल

गुंटूर बेंगलुरु। भारत में मंकीपॉक्स के लक्षणों वाले दो नए मामले सामने आए। इनमें से एक आंध्र प्रदेश के गुंटूर में है, जहां आठ साल के बच्चे में इस बीमारी के लक्षण देखे गए हैं। वहीं दूसरा मामला कर्नाटक में सामने आया है।

कर्नाटक में जिस व्यक्ति में मंकीपॉक्स के लक्षण मिले हैं, वह इथियोपिया का नागरिक है। फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है और बीमारी से जुड़ी तमाम सावधानियां बरती जा रही हैं। वहीं कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के. सुधाकर ने संवाददाताओं से कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। गुंटूर में जिस आठ साल के बच्चे में

लक्षण दिखे हैं, उसका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। जिला मेडिकल और स्वास्थ्य अफसर सुपैया खान ने बताया कि बच्चा मंकीपॉक्स का संदिग्ध मरीज है। पुष्टि के लिए हमने सैपल लिया है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे और गांधी हॉस्पिटल सिकंदराबाद के पास भेजा गया है।

झारखंड कांग्रेस के तीन विधायकों से भारी कैश जब्त

रांची। कोलकाता पुलिस ने शनिवार रात हावड़ा में झारखंड कांग्रेस के तीन विधायकों को गाड़ी से भारी संख्या में नोटों के बंडल बरामद किए हैं। तीनों झारखंड से पश्चिम बंगाल की तरफ की ओर जा रहे थे। वाहन चेकिंग के दौरान इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगारी और राजेश कच्छप की गाड़ी को पांचला थाना क्षेत्र के रानीहाटी मोड़ के पास रोका गया। जांच के दौरान उसमें से भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया। कैश कितना है इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। तीनों विधायकों को ग्रामीण हावड़ा की पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इरफान अंसारी जामताड़ा के विधायक हैं, नमन विक्सल कोंगारी सिमडेगा के कोलेबिरा और राजेश कच्छप रांची जिला के खिजड़ी विधानसभा क्षेत्र से



विधायक हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक स्नाति भंगालिया मौके पर पहुंचीं। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर रानीहाटी मोड़ पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया था। एक गाड़ी को रोका गया। गाड़ी पर चालक सहित पांच लोग सवार थे, जिसमें झारखंड के तीन कांग्रेसी विधायक राजेश कच्छप, नमन विक्सल कोंगारी और इरफान अंसारी भी थे।

स्नाति भंगालिया ने बताया कि हमने झारखंड से कांग्रेस के 3

विधायकों जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी, खिजरी के विधायक राजेश कच्छप और कोलेबिरा के विधायक नमन विक्सल को भारी मात्रा में नकद राशि के साथ पकड़ा है। कार्टिंग मशीन आने के बाद ही हम पैसों की गिनती कर पाएंगे।

दरअसल 25 जुलाई को झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य में दावा किया कि विधायकों का एक समूह उनकी पार्टी के संपर्क में है। जिनकी संख्या लगभग 16 के आसपास है और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी उनके प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहा है। हालांकि उन्होंने बीजेपी विधायकों को चर्चा को लौकिक इससे भी इंकार नहीं किया कि अन्य दलों के विधायक भी उन बीजेपी विधायकों के साथ हो सकते हैं।

महंगाई पर कांग्रेस का हल्ला बोल, 5 अगस्त को पीएम हाउस के घेराव का ऐलान

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी 5 अगस्त को मूल्य वृद्धि के खिलाफ व्यापक राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। पार्टी अपने बड़े विरोध के तहत संसद से राष्ट्रपति भवन और प्रधान मंत्री हाउस घेराव तक मार्च निकालना का ऐलान कर चुकी है। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पीएम हाउस का घेराव करने का ऐलान किया है। कांग्रेस के इस मार्च में पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की संभावना है। संसद के दोनों सदनों में इस सप्ताह मूल्य वृद्धि मुद्दे पर कई बयान दिये जाएंगे। लोकसभा में सोमवार को महंगाई पर बहस होने की संभावना है, उसके बाद मंगलवार को राज्यसभा में भी इस मुद्दे पर बहस हो सकती है। गौरतलब है कि विश्व 18 जुलाई को मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही दोनों सदनों में बढ़ती कीमतों और जीएसटी का मुद्दा उठा रहा है।

अर्पिता से जुड़ी 8 कंपनियों के बैंक खाते फ्रीज

ईडी हिरासत में पार्थ चर्जी का खुलासा, बोले- नेताओं के कहने पर नौकरियां दीं

एजेन्सी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में जुटी ईडी ने शनिवार को पूर्व मंत्री पार्थ चर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी से जुड़ी 8 कंपनियों के बैंक खाते को फ्रीज कर दिया है। 17वें दिन के पूछताछ में पार्थ ने घोटाले में खुलासा करते हुए कहा कि नेताओं के कहने पर नौकरियां दीं।

ईडी सूत्रों के मुताबिक शनिवार को अर्पिता और पार्थ को आमने-सामने बैठकर पूछताछ की जाएगी। अर्पिता के घर 28 जुलाई को छापेमारी के दौरान ईडी को करीब 28 करोड़ कैश मिले थे।

उधर, TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के घर के सामने प्रदर्शन कर रहे कैडिडेट्स को पुलिस ने हटा दिया है। कैडिडेट्स अभिषेक से मिलना चाहते



थे। पुलिस उन्हें सुबह से हटाने का कह रही थी। वो नहीं हटे तो बलपूर्वक हटाया गया।

पेंटहाउस के बारे में जानकारी मिली, 2 फ्लैट भी

ईडी सूत्रों के अर्पिता के जिस फ्लैट से 22 करोड़ रुपए कैश मिले थे, उस सोसाइटी में पार्थ ने अलग-अलग नामों से एक पेंटहाउस और दो फ्लैट्स खरीद रखे हैं। छापेमारी के बाद सोसाइटी के ऐप से इन फ्लैट्स के बारे

में जानकारी हाथ ली गई है। आनंदबाजार पत्रिका ने सोसाइटी में रहने वाले लोगों के हवाले से बताया कि मकान के 19वीं और 20वीं मंजिल पर दो फ्लैट्स हैं, जबकि सबसे ऊपर पेंटहाउस बनाया गया है। रहवासियों ने बताया कि पार्थ कभी-कभी इस पेंटहाउस में आते थे।

50 करोड़ मिलने के बाद 15 टिकानों पर छापे की तैयारी में ईडी

डायमंड सिटी और वीरभूम के

करीब 15 टिकानों पर ईडी छापेमारी की तैयारी में है। अब तक ईडी दो नो नो रेड में करीब 50 करोड़ रुपए कैश बरामद किए हैं। वहीं ईडी की पूछताछ में अर्पिता ने कबूल किया कि सारा पैसा पार्थ का है।

सीबीआई और आयकर विभाग की भी एंटी हो सकती है

ईडी की जांच पूरी होने के बाद जल्द ही इस मामले में CBI और आयकर विभाग की भी एंटी हो सकती है। आयकर विभाग बेनामी संपत्ति के मामले में पार्थ चर्जी और अर्पिता मुखर्जी से सवाल-जवाब कर सकता है।

यह भी खबर है कि जो 4 कारें गायब हैं, उनका अभी तक पता नहीं लगा है। ईडी के अधिकारियों को शक है कि इन कारों में रुपए भरकर भेजे गए।

सबसे अमीर महिला 89.49 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ टॉप पर, चीन की फैन होंगवी दूसरे नंबर पर

सावित्री जिंदल बनीं एशिया की सबसे अमीर महिला

नई दिल्ली। भारत की सावित्री जिंदल अब एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार सावित्री के पास 89.49 हजार करोड़ रुपए (11.3 अरब डॉलर) की संपत्ति है। दूसरे नंबर पर चीन की फैन होंगवी हैं। इनके पास भी 11.3 अरब डॉलर की संपत्ति है।

2021 में एशिया की सबसे अमीर महिला चीन की यांग हूड्यान थीं, जो अब तीसरे नंबर पर आ गई हैं। इनकी संपत्ति 87.11 हजार करोड़ (11 अरब डॉलर) है।

सबसे अमीर लोगों में सावित्री 164 वें स्थान पर



ब्लूमबर्ग की दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में सावित्री 164 वें स्थान पर पहुंच गई हैं। बता दें कि गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं। उनके पास 9.35

लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। सावित्री जिंदल, जिंदल ग्रुप की चेयरमैन हैं। कंपनी भारत में स्टील की तीसरी सबसे बड़ी उत्पादक है और सीमेंट, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के

क्षेत्र में काम करती है। एकरिपोर्ट के अनुसार, सावित्री जिंदल कभी कॉलेज नहीं गईं। इसके बावजूद पति की अचानक मौत के बाद उन्होंने ही पूरा कारोबार संभाला। वे कहती हैं कि जिंदल परिवार में अधिकतर महिलाएं घर की जिम्मेदारी संभालती हैं। जबकि पुरुष बाहर के काम देखते हैं। इसके चलते सावित्री को अपने पति का कारोबार संभालने में काफी मेहनत करनी पड़ी।

असम में पैदा हुईं, हरियाणा में शादी, दुनिया भर में किया नाम

सावित्री देवी 1950 में असम के तिनसुकिया में पैदा हुईं। 1970 में

जिंदल ग्रुप के फाउंडर हरियाणा के ओमप्रकाश जिंदल से उनकी शादी हुई। जिंदल ग्रुप स्टील के साथ और कई सेक्टर में एक्टिव है। ओपी जिंदल और सावित्री के नौ बच्चे हैं। चार बेटे-पृथ्वीराज जिंदल, सज्जन, रतन और नवीन हैं।

सबसे बड़े बेटे पृथ्वीराज, जिंदल सां कंपनी के चेयरमैन हैं। दूसरे बेटे सज्जन जिंदल ने JWS कंपनी की कमान संभाल रखी है। तीसरे बेटे रतन कंपनी में डायरेक्टर की पोस्ट पर हैं। वहीं परिवार के सबसे छोटे बेटे नवीन जिंदल 'जिंदल स्टील' के चेयरमैन हैं। इसके साथ ही वो सांसद भी रह चुके हैं।

भारत की शांति में खलल डालने वाली ताकतों के विरुद्ध मुखर हों लोग : डोभाल

नयी दिल्ली। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने शनिवार को कहा कि दुनिया में इस समय उत्कर्ष का वातावरण बना हुआ है और ऐसी परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए देश के अंदर एकता की भावना को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। डोभाल राजधानी में अखिल भारतीय सूफी सजादानशीन परिषद (एआईएससीसी) के तत्वावधान में विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) जैसे संगठनों की भर्त्सना की गयी है और समाज में



नफरत पैदा करने वाले संगठनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और पाबंदी लगाने की मांग की गयी है। डोभाल ने कहा कि ऐसी बहुत सी ताकतें इस समय सक्रिय हैं जो भारत की शांति में खलल डालने का प्रयास कर रही हैं, ऐसे में शांति के पक्षधर

लोगों को मुकदशक बनने रहने के बजाय ऐसी ताकतों के खिलाफ मुखर होना होगा।

उन्होंने कहा, दुनिया में इस समय माहौल अजीबोगरीब है, उत्कर्ष का वातावरण बना हुआ है, हमें यदि इसका सामना करना है तो इसकी सबसे बड़ी जरूरत है, देश के अंदर एकता को बनाये रखना। पिछले कुछ वर्षों से भारत ने जो प्रगति की है, उसका फल देश के हर धर्म और हर सम्प्रदाय के लोगों को मिलेगा।

उन्होंने कहा, ऐसी तमाम ताकतें हैं जो भारत में निराशा का वातावरण सृजित करने में लगी हुई हैं और वे निश्चित रूप से भारत की प्रगति में बाधाएं खड़ी करने का यत्न करेंगी।

शार्ट न्यूज

भारत में मंकीपॉक्स के पहले मरीज ने दी बीमारी को मात, स्पेन में दो दिन में दूसरी मौत

नई दिल्ली । भारत में मंकीपॉक्स के पहले मरीज ने इस बीमारी को मात देने में सफलता हासिल की है। केरल के इस व्यक्ति का इलाज सरकारी मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा था। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने शनिवार को इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी। वहीं स्पेन में मंकीपॉक्स से एक और व्यक्ति की मौत हो गई। पिछले दो दिनों में मंकीपॉक्स से मौत का यह दूसरा मामला है। वहां स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने मृतकों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है। इस वायरस से पहली मौत का मामला शुक्रवार को सामने आया था। गौरतलब है कि मई से दुनिया के करीब 80 देशों में मंकीपॉक्स के 21,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। अफ्रीका में इस वायरस से 75 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से ज्यादातर मौतें नाइजीरिया और कांगो में हुईं। ब्राजील में भी मंकीपॉक्स से एक व्यक्ति की मौत की सूचना मिली है। स्पेन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि देश में इस वायरस से अब तक 4,298 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से करीब 3,500 पुरुष ऐसे हैं, जिन्होंने अन्य पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाए। संक्रमितों में कड़े 64 महिलाएँ हैं। मंत्रालय ने बताया कि मंकीपॉक्स से संक्रमित 120 लोगों को अब तक अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यूरोपीय संघ के संयुक्त टीका कार्यक्रम के तहत देश को टीके की 5300 खुराक मिल चुकी है।

खाद्य तेलों में मिलावट रोकने को पहली अगस्त से विशेष अभियान

देहरादून । उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु की अध्यक्षता में फूड सेफ्टी एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की प्रथम बैठक हुई। इसमें तय किया गया कि पहली से 14 अगस्त तक खाद्य तेलों में मिलावट रोकने के लिये विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं भ्रामक अधिनियम – 2006 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए सभी सम्बन्धित विभागों और हितधारकों को आपसी सहयोग के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने सैंपलिंग और टेस्टिंग बढ़ाए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने हेतु कड़े ह्दम उठाए जाएं। इसके लिए मोबाइल टैस्टिंग वैन की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने सही, सुरक्षित और पोषक आहार हेतु अभियान में आमजन की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने पर बल दिया। डॉ.सन्धु ने राज्य के छोटे-बड़े होटल एवं रेस्टोरंटों के हाइजीन सर्टिफिकेशन पर जोर देते हुए इसे अभियान के रूप में चलाए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि होटलस को भी हाइजीन रेटिंग प्राप्त करने एवं होटल के बाहर अथवा साइनबोर्ड में प्रदर्शित करने हेतु जागरूक किया जाए, साथ ही लोगों को भी जागरूक किया जाए कि वे हाइजीन रेटिंग देखकर ही होटल रेस्टोरंट में जाएं। इससे क्लीन फूड, सेफ फूड की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।

एसीबी ने एडीआई के खिलाफ रिश्तत लेने का मामला दर्ज किया

हैदराबाद । हैदराबाद में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने शनिवार को सहायक क्षेत्रीय इंजीनियर (एडीआई) के खिलाफ रिश्तत लेने पर मामला दर्ज किया। एसीबी की विज्ञप्ति में यहां कहा गया है कि यह आपराधिक मामला तेलंगाना राज्य सदरन बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड, (टोएएसएपीडीसीएल) संगारेड्डी जिले के ईमानपुर के एडीआई (संजालन) गोपाल कृष्ण के खिलाफ दर्ज किया गया है। मामले के अनुसार हैदराबाद के बिजली के टेकेदार शिकायतकर्ता गुल्ला शिव कुमार को 25 एचपी क्षमता के ट्रांसफार्मर और 86 अन्य कार्य मंजूर किए गए थे। इसके लिए गोपाल कृष्ण ने चालीस हजार रुपये रीश्तत की मांग की और उसने यह भी एक भाषा, एक धर्म और एक संस्कृति थोपने का प्रयास कर रहे है वे देश को एकता को नष्ट करने को कोशिश कर रहे है। उन्होने भाजपा के लिए एक स्पष्ट संदर्भ में कहा कि वे भारत और उसके लोगों के दुश्मन हैं तथा हमें ऐसी ताकतों के लिए कभी जगह नहीं देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्रीय भाषा और एक धर्म भारत में संभव नहीं है क्योंकि यहां कई भाषाएँ और विभिन्न धर्म हैं, लेकिन कई मतभेदों के बावजूद हम प्यार और भाईचारे के कारण एकजुट हैं। श्री स्टालिन ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने देश की विविध संस्कृति का सम्मान किया और सुनिश्चित किया कि गैर-हिंदी भाषी लोगों पर हिंदी नहीं थोपी जाएगी।

स्टालिन ने भाजपा नीत राजग सरकार को देश का दुश्मन बताया

चेन्नई । तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन शनिवार को केंद्र को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार को जनविरोधी बताते हुए कहा कि देश में एक भाषा, एक धर्म लागू करने का प्रयास करने वाले देश के दुश्मन है। केरल दैनिक मलयाला मनोरमा की ओर से त्रिपुर में आयोजित भारत 75 – मामले की स्थिति, आजादी और आगे , संघवाद पर एक सम्मेलन को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री स्टालिन ने कहा कि जो एक भाषा, एक धर्म और एक संस्कृति थोपने का प्रयास कर रहे है वे देश को एकता को नष्ट करने को कोशिश कर रहे है। उन्होने भाजपा के लिए एक स्पष्ट संदर्भ में कहा कि वे भारत और उसके लोगों के दुश्मन हैं तथा हमें ऐसी ताकतों के लिए कभी जगह नहीं देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्रीय भाषा और एक धर्म भारत में संभव नहीं है क्योंकि यहां कई भाषाएँ और विभिन्न धर्म हैं, लेकिन कई मतभेदों के बावजूद हम प्यार और भाईचारे के कारण एकजुट हैं। श्री स्टालिन ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने देश की विविध संस्कृति का सम्मान किया और सुनिश्चित किया कि गैर-हिंदी भाषी लोगों पर हिंदी नहीं थोपी जाएगी।

त्रिपुरा सरकार की 80 पिछड़े गांवों में बिजली उपलब्ध कराने की योजना

अगरतला। त्रिपुरा सरकार एक करोड़ की लागत से 80 पिछड़े गांवों में सूक्ष्म सौर संयंत्रों के साथ बिजली उपलब्ध कराने की योजना पर काम कर रही है।उपमुख्यमंत्री जिष्णु देव वर्मा ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि त्रिपुरा में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले साढ़े चार वर्षों में बिजली वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण किया है। इस कार्य को उपभोक्ताओं से शुरूर लिए बिना ही पूरा किया गया है। इसके अलावा, बिजली उत्पादन के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और क्षमता का दोहन करने के लिए राज्य सरकार ने एक अलग कंपनी की स्थापना की। त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पहले ही डेढ़ साल में 50 से अधिक बिजली सब स्टेशन बनाए हैं ताकि बिजली वितरण प्रणाली को मजबूत किया जा सके। इस कार्य से ट्रांसमिशन नुकसान कम हुआ और अंतिम उपयोगकर्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हुई। बेहरहाल राज्य का 62 प्रतिशत हिस्सा वनों के अधीन है, इसलिए राज्य के आंतरिक स्थानों को बिजली उपलब्ध कराना मुश्किल हो गया है। अंधेरी बरिसियों को रोशन करने के लिए बिजली के गैर-पारंपरिक स्रोतों का पता लगाने के लिए एक योजना तैयार की गई है।

हिसार-घग्घर ड्रेन की स्थिति नियंत्रण में : तोमर

सिरसा। हरियाणा में सिरसा के गांव दड़बा कलां के पास हिसार-घग्घर ड्रेन में कटाव के बाद स्थिति नियंत्रण में है और आगे कुछ घंटों में इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया जाएगा। दो जेसीबी-पोकलन मशीनें लगाकर ड्रेन की सफाई की जा रही है, ताकि ड्रेन की क्षमता बढ़ सके और आगे पानी की निकासी हो सके। कटाव के कारण जिस एरिया में पानी भरवा हुआ है, वो सैम का क्षेत्र है। फसल के एरिया तक पानी नहीं गया है, इसलिए अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। उपरोक्त जानकारी सिरसा के उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने मौके का निरीक्षण करने के बाद दी। निरीक्षण के दौरान उनके साथ एसडीएम जयवीर यादव, कार्यकारी अभियंता सिंचाई मंदीप सिहाग, तहसीलदार मंजीत मलिक, डीएसपी साधु राम, बीडीपीओ युद्धवीर सिंघु सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। श्री तोमर ने कहा कि नाले की सफाई के लिए दो मशीनें लगा दी गई हैं। इसके साथ ही बीडीपीओ व सिंचाई विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि नाले की लगातार निगरानी रखी जाए और अधिक पानी आने पर अवागत करवाया जाए। उन्होंने बताया कि संभावित स्थिति से निपटने को लेकर मनरेगा के माध्यम से मिट्टी के कटटे तैयार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस को भी लगातार निगरानी रखे जाने के लिए निर्देश गए हैं। उन्होंने बताया कि पीछे भिवानी, जौद, हिसार, फतेहाबाद होते हुए भट्टू एरिया का पानी भी नाले में आ रहा है, इसके अलावा इस एरिया में पिछले दो दिनों से बारिश भी हुई है।

बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में देरी

1.6 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित लागत में होगी बढ़ोतरी

मुंबई। देश की पहली 'हाई स्पीड रेल' या फिर कहें कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम जारी है। अहमदाबाद से मुंबई के बीच प्रस्तावित 1.6 लाख करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट में देरी की आशंका है।

ऐसे में इसे पूरा करने में अनुमानित लागत सीमा पार हो सकती है। मालूम हो कि कोरोना वायरस महामारी और भूमि अधिग्रहण में आर्थी दिक्कतों के चलते यह देरी हो रही है।

2015 में हुए स्टाडी में यह अनुमान लगाया गया था कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को पूरा करने में 1.8 लाख करोड़ रुपये का खर्चा आ सकता है। लेकिन अब यानी कि 2022 में कई सारी चीजें



बदल गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, भूमि अधिग्रहण में अनुमान से ज्यादा धन खर्च हुआ है। साथ ही सीमेंट, स्टील और अन्य कच्चा माल की कीमतें काफी बढ़ गई हैं।

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का कहना है कि प्रोजेक्ट के लिए नई लागत की जानकारी अभी नहीं दी जा सकती है। भूमि अधिग्रहण

कश्मीरी युवाओं के हितों की रक्षा नेतृत्व की सबसे बड़ी चुनौती : लोन

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्ग्रेस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने कहा कि लोगों के हितों की रक्षा करना विशेष रूप से राज्य के युवाओं की सुरक्षा वर्तमान समय में सबसे बड़ी नेतृत्व चुनौती है।

पाटी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि श्री लोन ने श्रीनगर में अपने मुख्यालय में सोपों के प्रमुख कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के दौरान यह बात कही।

उन्होंने कहा, यह जरूरी है कि हम परिभाषित करें कि कश्मीर में नेतृत्व क्या होता है। आज कश्मीर में नेतृत्व का क्या मतलब है? हम दृढ़ता से मानते हैं कि नेतृत्व का अर्थ है इस

अवसर पर उठना और भूखे शेरों को खिलाने के बजाय कश्मीरियों को बचाना। कश्मीर में प्री-स्क्रिटेड थिएटरों में परफॉर्म करने की लजगी अब खत्म हो गई है। अब समय आ गया है कि नेतृत्व अपनी नौद से उठे और समझें कि नेतृत्व जो भी शब्द बोलता है उसका कश्मीर के लोगों के लिए परिणाम होता है।

श्री लोन ने जम्मू कश्मीर के लोगों का दूरदर्शी, दृढ़ रहने और जम्मू कश्मीर को अनिश्चितता के वर्तमान चक्र से बाहर निकालने का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा,यह वर्तमान समय के कड़े आदेशों से घबराने का समय नहीं है। यह एक लंबा खेल है।

रामसेतु फिल्म को लेकर अक्षय कुमार पर सवाल

सुब्रमण्यम स्वामी बोले-अगर विदेशी नागरिक तो बाह्य निकालने की करेंगे मांग

नई दिल्ली। अक्षय कुमार एक बार फिर विवादों में घिरे नजर आ रहे हैं।

यह विवाद बॉलीवुड फिल्म अभिनेता की आने वाली फिल्म रामसेतु को लेकर उठा है। असल में पॉलिटिशियन सुब्रमण्यम स्वामी ने अक्षय कुमार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि अक्षय की फिल्म रामसेतु में गलत तथ्य दिखाए जा रहे हैं। इस बारे में उन्होंने शनिवार को दो टूबीट्स भी किए। इन ट्वीट में स्वामी ने अभिनेता की नागरिकता पर भी सवाल उठाया लिखा कि अगर अक्षय कुमार विदेशी नागरिक हैं तो उन्हें देश से बेखुल करने को भी बोल सकते हैं। इसके उनके साथ अभिनेता समेत फिल्म

निर्माताओं पर भी केस करने की बात कही है।

दो ट्वीट किए हैं

इस फिल्म को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने दो ट्वीट किए हैं। पहले ट्वीट में स्वामी ने लिखा है कि मैं अभिनेता अक्षय कुमार और उनकी कर्मा मीडिया के खिलाफ केस दर्ज करवाने वाला हूं। उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म रामसेतु को गलत ढंग से दिखाया है। स्वामी ने लिखा है कि अक्षय कुमार को फिल्म से रामसेतु की छवि को नुकसान पहुंचाया है। इसके साथ ही कानूनी प्रक्रिया की बात करते हुए वह लिखते हैं कि मेरे वकील सत्य

चर्चा, बहस, निर्णय लेने से आगे बढ़ा जा सकता है : मुख्य न्यायाधीश रमना

नयी दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एन वी रमना ने संसद के मानसून सत्र के दौरान लगातार दो सप्ताह तक गतिरोध चलने के बाद शनिवार को कहा कि चर्चा और बहस और बेहतर फैसलों के माध्यम से देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। न्यायमूर्ति रमना ने यहां पहली जिला विधिद सेवा प्राधिकरण की बैठक को संबोधित करते हुए कहा, मुझे डर है कि हम सामाजिक न्याय के अपने संवैधानिक जनादेश को पूरा करने में असमर्थ हो सकते हैं। इसलिए, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस पर आप चर्चा करें, बहस करें और फैसले लें। यही वह सिद्धांत है जिसका मैं भी पूरी तरह से पालन कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, समस्याओं को छिपाने से उसका कोई समाधान नहीं निकल सकता। यदि हम इन मुद्दों पर चर्चा नहीं करते हैं, यदि चिंता के मामलों को चर्चा नहीं की जाती है तो व्यवस्था चरमरा जाएगी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यदि

न्यायपालिका लोगों के दरवाजे तक पहुंच गई है और उनका विश्वास जीता जात है, तो दूरदर्शी न्यायाधीशों के बीच सहकारी कामकाज की प्रशंसा की जाती है और उसाही अधिकाओं और स्वयंसेवकों और सरकारों के बीच सहकारी कामकाज आसान हो जाता है। उन्होंने कहा,अगर हम लोगों की बेहतर सेवा करना चाहते हैं, तो हमें उन मुद्दों को उठाने की जरूरत है जो हमारे कामकाज में बाधा बन रहे हैं। सरकारें न्याय तक पहुंच योजनाओं में भी सक्रिय भागीदार रहें हैं। इस आर्येण को उद्देश्य न्याय प्रशासन को नियंत्रित करने वाले विभिन्न कारकों के बारे में आत्मनिरीक्षण करना और व्यवस्था में बेहतर सुधार लाने के तरीकों और साधनों को तलाशना है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, जिला न्यायपालिका दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में न्याय प्रदान करने की रीढ़ की हड्डी है।

देश के कई राज्यों में ऊर्जा क्षेत्र संकट में: मोदी

एजेंसी

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि वर्तमान में कई राज्यों में ऊर्जा क्षेत्र भारी संकट में है और जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो इसका अस्सर प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है।



ज्यादा है। उन्होंने कहा, इसका मतलब ये है कि हमारे यहां बिजली की बर्बादी बहुत है और इसकी मांग पूरी करने के लिए हमें जरूरत से अधिक बिजली उत्पादन करना पड़ता है।

ऊर्जा पारितोषण और पारेषण के दौरान होने वाले नुकसान को का कम

का काम और सभी कॉन्ट्रैक्स पूरे होने के बाद ही इसकी घोषणा की जा सकेगी।

508 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की शुरुआती डेडलाइन 2022 ही थी।आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि केवल दादर और नागर हवेली में ही अब तक 100 फीसदी भूमि अधिग्रहण हो सका है। प्रोजेक्ट के लिए गुजरात में भूमि अधिग्रहण का काम 98.9 प्रतिशत और महाराष्ट्र में 73 प्रतिशत पूरा हुआ है। केंद्र सरकार का कहना है कि महाराष्ट्र में भूमि अधिग्रहण में लगर रहा समय ही प्रोजेक्ट में हो रही देरी का मुख्य कारण है।

प्रवीण हत्याकांड को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के इस्तीफे

‘विधानसभा चुनाव में पार्टी को पड़ सकता है महंगा’

बेंगलुरु।कर्नाटक के बेल्लारे में भाजपा युवा नेता प्रवीण नेतारू की हत्या का मामला जोर पकड़ता जा रहा है।

प्रदेश भर में पार्टी की सोशल मीडिया प्रबंधन टीम समेत भाजपा युवा मोर्चा के कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। इसे लेकर बीजेपी ने सीनियर नेता का कहना है कि इससे आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कतील के खिलाफ काफी नाराजगी है। प्रवीण की हत्या के बाद विजयपुर, बालकोट, दक्षिण कन्नड़, चित्रदुर्ग, हुबली और कोप्पल सहित विभिन्न जिलों के भाजपावाइएम



कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। इसके जरिए उन्होंने पार्टी नेताओं व सरकार को मैसेज भेजने का काम किया है।

कार्यकर्ताओं को मनाने का सिलसिला जारी

चिक्कमगलुरु जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष संदीप अरिविगंगडी ने इसे

श्रीनगर में सोने की चोरी के आरोप में एक महिला सहित तीन गिरफ्तार

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में कथित तौर पर सोने के गहने चुराने के 7,981 किलोग्राम वजन के 70,000 डब्ब्यूवाई के संदिग्ध टैबलेट के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी की पहचान कांगपोकपी जिला निवासी हेनजाखुप किपगेन के रूप में हुयी है। पुलिस ने बताया कि किपगेन को राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे इम्फाल पंचमर्ग के एमयू गेट के पास कालीचूर में गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने अपनी कार में ये गोलियां छिपा कर रखी थीं। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दवाएं म्यांमार सीमा के पास मणिपुर के मोरेह से मंगवाई गई थीं और इन्हें अन्य राज्यों में ले जाया जाना था।

पुलिस ने बताया, शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने कहा, घटना स्थल के पास तकनीकी साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद, हार्डन सीवर खुरहामा लोलाब कुपवाड़ा के ताहिर अहमद मीर की पहचान की गई और दो दिनों के भीतर कड़ी मशकत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कहा, आरोपी के स्वीकारोक्ति बयान पर तत्काल मामले में शामिल सिल्वर खुर्हामा लोलाब कुपवाड़ा निवासी कार्तिक सरदार की ओर से शिकायत मिली थी कि आधी रात के दौरान कुछ सवार चोरों ने उनकी आभूषण की दुकान में प्रवेश किया और सोने के आभूषण चुरा लिए।

‘जांच एनआईए को सौंपने का फैसला’

लेकर कार्यकर्ताओं से बातचीत की। संदीप ने उन्हें इस्तीफा देने के अपने फैसले को वापस लेने के लिए राजी भी कर लिया। पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट को मैनेज करने वाले कतीब 100 लोगों ने ऐलान किया है कि वे इससे दूर रहेंगे।

बीजेपी के प्रदेश प्रचारक एमजी महेश ने बीजेपीवाइएम के पदाधिकारियों से अपने पदों से इस्तीफा नहीं देने की अपील की। उन्होंने वादा किया कि पार्टी उन्हें कभी भी निराश नहीं होने देगी।

वहीं, तुमकुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना दिया और अपना इस्तीफा सौंप दिया। बीजेपी

नेता रेखा शंभू ने अपने इस्तीफे में कहा कि धर्म उनके लिए अहम है और धर्म उनके पहली प्राथमिकता भी है।

‘जांच एनआईए को सौंपने का फैसला’

वहीं, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने नेतारू की हत्या की जांच एनआईए को सौंपने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि युवा भाजपा कार्यकर्ता की हत्या सुनियोजित और संगठित अपराध था। उन्होंने कहा, इसका अंतरराष्ट्रीय आयाम देखने को मिल रहा है। इस मामले पर राज्य के डीजी और आईजी से बातचीत की है और पूरी जानकारी मांगी है।

वैकैया ने बच्चों में स्कूल से ही मौलिक चरित्र मजबूत करने का किया आह्वान

हैदराबाद। उपराष्ट्रपति एम वैकैया नायडू ने शनिवार को स्कूल से ही बच्चों में मजबूत नैतिक चरित्र और युवा अवस्था में ही सद्भाव , भाईचारे के राष्ट्रीय मूल्यों को विकसित करने का आह्वान किया।

श्री नायडू यहां रामतपुर में हैदराबाद पब्लिक स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे।

श्री नायडू ने याद किया कि हमारे राष्ट्रपिता ने ऐसे भारत की कल्पना की थी जो धर्म, जाति, लिंग या यहां तक कि जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करता है और इस तरह विचारों से ही भारत एक विशेष राष्ट्र बनता है। उन्होंने कहा कि सभी बाधाओं के

खिलाफ इन मूल्यों का अभ्यास करने और उनकी रक्षा करने का संकल्प लें। उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों में उच्छृंखला को आदर्श वाक्य बनाने का आग्रह किया और स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 का पूरा लाभ उठाने की सलाह दी। उन्होंने स्कूलों में मातृभाषा के उपयोग के मुद्दे पर बात करते हुए चिंता व्यक्त की कि कुछ स्कूल छात्रों को अंग्रेजी में बोलने और सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

इस अवसर पर तेलंगाना के गृहमंत्री मोहम्मद महमूद अली, विधायक बी सुभाष रेड्डी, वकाती करुणा, सचिव, शिक्षा सहित स्कूल के पूर्व छात्र और अन्य उपस्थित थे।

यूनानी, होम्यो चिकित्सा अनुसंधान संस्थानों को नयी मुंबई में मिला नया घर



मुंबई। केंद्रीय आयुष, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शनिवार को नवी मुंबई में आयुष भवन परिसर का उद्घाटन किया जहां होम्योपैथी और यूनानी पद्धति से उचार के साथ-साथ उन्नत अनुसंधान भी किए जाएंगे।

खारघर में इस नए परिसर में आने वाले दिनों में केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच) के अंतर्गत एक क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान (आरआरआईएच) और यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम) के अंतर्गत एक यूनानी चिकित्सा के क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान (आरआरआईयूएम) काम कर रहे होंगे।

कुल करीब दो हजार वर्ग मीटर के क्षेत्र में निर्मित, तीन मंजिला भवन परिसर में चिकित्सा के साथ-साथ अनुसंधान सुविधाएं भी स्थापित की

संस्थान को इलाज-बिबत-तदवीर यानी रोजमेंटल थेरेपी के उच्छृंखला केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है।

श्री सोनोवाल ने कहा कि भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों ने सदियों से मानव जीवन को समृद्ध बनाने पर अपना प्रभाव सिद्ध किया है। उन्होंने कहा, आधुनिक चिकित्सा के साथ पारंपरिक और गैर-पारंपरिक प्रणालियों के लाभों को शामिल करने के रूप में विकसित करने और यहां यूनानी चिकित्सा के क्षेत्रीय अनुसंधान

चिकित्सा कार्य व्यवसाय नहीं, मानव सेवा है : पटेल

जबलपुर। मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कही है कि चिकित्सा कार्य व्यवसाय नहीं, मानव सेवा है। यह कार्य ईश्वर की कृपा से मिलता है। चिकित्सक मानवता की सेवा पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से करें। मरीज के प्रति सेवा भाव रखें।

समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति का भी पूरी निष्ठा के साथ इलाज करें। मरीजों से सहृदयता से बात करें। पटेल आज यहां मध्यप्रदेश आधुविज्ञान विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत

जानकर हैरानी होगी कि अलग-अलग राज्यों का एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। ये पैसा उन्हें पावर जेनेरेशन कंपनियों को देना है। वहीं पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों को अनेक सरकारी विभागों पर और स्थानीय निकायों पर भी 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक बकाया है। उन्होंने कहा कि अलग-अलग राज्यों में बिजली पर जो सॉक्सडी दी जाती है , जो पैसा भी इन कंपनियों को समय पर और पूरा नहीं मिल पाता तथा ये बकाया भी 75 हजार करोड़ रुपए से अधिक का है।

श्री मोदी ने कहा , आपको ये

शार्ट न्यूज

सांसद रमेश बिधुड़ी ने छतरपुर दो दिवसीय प्रवास के दौरान सुनी जनता की समस्या

नई दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधुड़ी ने दो दिनों के लिए छतरपुर विधानसभा में प्रवास किया। इस दौरान सांसद रमेश बिधुड़ी क्षेत्र के लोगों से मिले। इस प्रवास के दौरान छतरपुर के लोग अपने सांसद को अपने बीच देखकर काफी खुश थे। इन दो दिन सांसद रमेश बिधुड़ी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के घर पर निवास किया। श्री बिधुड़ी पिछले 25 साल से सक्रिय राजनीति में हैं। दिल्ली के सबसे सक्रिय सांसदों में इनकी गिनती होती है। इस प्रवास के दौरान सांसद रमेश बिधुड़ी ने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक योजनाओं के विषय में लोगों को बताया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे इसके लिए केंद्र सरकार संकल्पबद्ध है। केंद्र सरकार ने इन योजनाओं के माध्यम से आम लोगों का जीवन आसान बनाया है। प्रवास के दौरान दो दिन प्रातःकाल में सांसद बिधुड़ी ने संघ साखा में भी शिरकत की। इस दौरान कई गैर सरकारी संघटनों के प्रतिनिधियों से भी सांसद बिधुड़ी ने मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जानकारी ली। इस दौरान बीजेपी महरीली जिला के अध्यक्ष जगमोहन महालवत व बीजेपी दिल्ली के उपाध्यक्ष रणवीर तंवर व बड़ी में लोग मौजूद रहे।

भाजपा प्रवक्ता ने सम्पति सर्किल रेट में सम्भावित वृद्धि का किया विरोध

नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल एवं उप मुख्य मंत्री मनीष सिंसोदिया को पत्र लिखकर दिल्ली सरकार के द्वारा सम्पति सर्किल रेट में प्रस्तावित वृद्धि का कड़ा विरोध किया है और मांग की है की किस प्रकार वर्तमान समय ऐसा कोई फैसला ना ले। पत्र में कहा गया है की इस वक्त सम्पति बाजार बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा है जब दिल्ली में हजारों हजार छोटी बड़ी सम्पतियों बिक्री के लिये तैयार हैं पर खरीदार तो दूर किराये पर लेने के इच्छुक नहीं है। आज दिल्ली में कनाटा प्लेस- वसंत विहार से लेकर चांदनी चौक- गांधी नगर जैसे इलाके हों या फिर बाहरी दिल्ली के इलाके हर सम्पति बाजार निराश है। गत माह सरकार के द्वारा कोविडकाल में सर्किल रेट में दी गई 20 प्रतिशत की कटौत को वापस लेने के बाद से दिल्ली के लगभग सभी सम्पति पंजीकरण कार्यालयों में होने वाली रजिस्ट्रियों में 25 से 50 प्रतिशत तक की कमी आई है। कपूर ने मांग की है की सर्किल रेट बढ़ाने की बजाये सरकार ऐसी नीति लाये जिससे लोग सम्पतियों में निवेश करें और खासकर किराये पर लेने में भी रूची लें।

11वीं मजिल से कूटकर महिला ने की आत्महत्या

ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट की निराला स्टेट सोसाइटी में रहने वाले एक सेवानिवृत्त निदेशक की पत्नी ने शनिवार सुबह 11 वीं मजिल से कूटकर जान दे दी। घटना के समय महिला का पति और बेटा दूसरे कमरे में थे। पुलिस ने बताया कि महिला पिछले सात साल साल से मानसिक तनाव में थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बिस्तरख कोतवाली प्रभारी उमेश बहादुर सिंह ने बताया कि इंडियन डिफेंस सर्विस के रिटायर्ड डॉक्टर राजीव यादव निराला स्टेट सोसाइटी में पत्नी और बेटे के साथ रहते हैं। शनिवार सुबह करीब 11 बजे उनकी 55 वर्षीय पत्नी प्रतिभा यादव ने अपने फ्लैट के 11 वें फ्लोर की बालकनी से कूटकर आत्महत्या कर ली है। घटना के समय राजीव यादव और उनका बेटा रोहन दूसरे कमरे में थे। सोसाइटी के लोगों की सूचना पर पर्रिजन तुरंत नीचे पहुंचे और उनको नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया। जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सूचना पर थाना बिस्तरख पुलिस व फोल्ड यूनिट मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस को छानबीन में पता चला है कि महिला 2015 से डिप्रेशन में थी, जिसका इलाज चल रहा था। आशंका है कि महिला ने डिप्रेशन के चलते आत्महत्या की है।

7 लोगों की सनसनीखेज हत्या के मामले में पूर्व चालक दोषी करार, गाजियाबाद कोर्ट 1 अगस्त को सुनाएगी सजा

गाजियाबाद। गाजियाबाद के घंटाघर नई बस्ती मोहल्ले में कारोबारी परिवार के सात लोगों की हत्या करने के मामले में आरोपी पूर्व ड्राइवर को अदालत ने शनिवार को दोषी ठहराया है। सजा पर फैसले के लिए 1 अगस्त तारीख तय की गई है। हत्यारे राहुल वर्मा पर कारोबारी के घर से घटना के बाद लाखों रुपये के गहने एवं जेवरात लूटकर भागने का मामला विद्युत हुआ है। सनसनीखेज मामले की सुनवाई शनिवार को ईसी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश को अदालत में हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि अदालत ने पुख्ता साक्ष्य, गवाही एवं फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर सात हत्याकांड के मामले में कारोबारी के पूर्व कार चालक राहुल वर्मा को दोषी ठहराया है। उन्होंने बताया कि सनसनीखेज हत्याकांड में शामिल इकलौता हत्यारी राहुल करीब नौ साल से डासना जेल में बंद है। दरअसल, घंटाघर कोतवाली क्षेत्र में 21 मई 2013 की रात सनसनीखेज घटना हुई थी। घंटाघर नई बस्ती मोहल्ले में रहने वाले बुजुर्ग कारोबारी सतीश गोयल एवं उनके पूरे परिवार की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। मृतक कारोबारी के दामाद सचिन मित्तल ने कोतवाली थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ हत्याकांड का मुकदमा दर्ज कराया था।

ट्रक चपेट में आए कई वाहन, दो लोगों की मौत

गाजियाबाद। गाजियाबाद नगर कोतवाली क्षेत्र में शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन के पास फ्लाईओवर पर चल रहा ट्रक अनियंत्रित हो गया और बैक दौड़ पड़ा। पीछे चल रहे दो ऑटो और एक बाइक चपेट में आए। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने आनन-फानन में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे के बाद आरोपी चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। हादसे में विशाल निवासी इटावा तथा संजय हरदोई की मौत हुई है। शुक्रवार रात करीब 12 बजे सीमेंट से लदा एक ट्रक शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन के पास फ्लाईओवर पर चढ़ रहा था। इसी बीच एक का एक ट्रक अनियंत्रित हो गया और बैक गियर में दौड़ने लगा। पीछे चल रहे सवारियों से भरे दो ऑटो और एक बाइक उसकी चपेट में आए गए। एक ऑटो को ट्रक ने तुर ही बुरे डाला।

आचार्य डॉ लोकेशजी को नेल्सन मंडेला ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल अवार्ड 2022 समर्पित

आचार्य लोकेशजी ने 'मानवाधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन' को संबोधित किया

विवेक राय/गौरवशाली भारत

नई दिल्ली। अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक आचार्य डॉ लोकेशजी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं क्राइम कंट्रोल ब्यूरो द्वारा दिल्ली के होटल अशोक में आयोजित 'मानवाधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022' के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर, आचार्य लोकेशजी को अहिंसा, शांति व सद्भावना के संदेश को देश-दुनिया में फैलाने के अभूतपूर्व कार्यों के लिए 'नेल्सन मंडेला ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल अवार्ड 2022' से सम्मानित किया गया। सम्मेलन के



प्रियंक कानुनगो, रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ अजित कुमार सिन्हाजी, सांसद पद्मश्री हंस राज हंस, एनएसएसके के अध्यक्ष श्री एम वेंकटेश्वर, पूर्व सांसद श्री भुनेश्वर प्रसाद में मेहता, एनएचआरसीसीबी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ रणधीर कुमार आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। विश्व शांतिदूत प्रख्यात जैनाचार्य डॉ लोकेशजी ने इस अवसर पर क्राइम के

मूल कारणों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गरीबी, अभाव, नशा, गुस्सा, अति लोभ, आबादी विस्फोट आदि भी अपराध के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि क्राइम मुक्त भारत एवं मानवाधिकारों के रक्षा के लिए मूल्यपरक शिक्षा आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार हो।

केन्द्रीय मंत्री श्री रामदास आठवले ने आचार्य लोकेशजी को 'नेल्सन मंडेला ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल अवार्ड 2022' से सम्मानित करते हुए कहा कि मानवाधिकारों की रक्षा के लिए जैनाचार्य लोकेशजी से अधिक उपयुक्त कोई व्यक्ति नहीं हो सकता क्योंकि जैन सिद्धान्त मानवाधिकारों से आगे जीव (प्राणी मात्र) और अजीव के अधिकारों की रक्षा की बात करता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि मानव के सुखी जीवन के लिए मानव अधिकार बहुत आवश्यक है। हमें मानव के हितों की रक्षा के लिए साथ आने की जरूरत है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य जस्टिस एमएम कुमार ने कहा कि विश्व के अनेक देश सुरासन की

ओर ध्यान देते हैं, भारत को भी विकास की गति तेज करने के लिए सुरासन का रास्ता अपनाना होगा। सुरासन में जनता की भागीदारी आवश्यक है। एक ऐसा शासन जिसमें देश के लोग प्रसन्न हों, उनका संतुलित विकास हो, देश के फैसले में उनकी भागीदारी हो। इसके लिए जनता का जागरूक होना आवश्यक है, यह रास्ता सही मायने में मानवाधिकार की रक्षा के लिये बेहतर होगा। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में सवागत भाषण व धन्यवाद ज्ञापन राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ रणधीर कुमार ने दिया एवं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कन्वेंशन की स्मारिका का भी लोकार्पण किया गया।

उज्ज्वल भारत, उज्ज्वल भविष्य- बिजली महोत्सव

आज़ादी का अमृत महोत्सव-स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ को मनाने हेतु विद्युत् मंत्रालय, भारत सरकार तथा नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 25 जुलाई 2022 से बिजली महोत्सव उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य- उर्जा2047 से सम्बंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन देशभर के जिलों में किया गया।



नेत्रद मोदी की उपस्थिति में आयोजित किया गया। इस समापन समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी ने विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से देश के 100 से अधिक जिलों से जुड़े लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने विद्युत् मंत्रालय, भारत सरकार के विभिन्न योजनाओं के 05 जिलों के लाभार्थियों से चर्चा भी की। कार्यक्रम में विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 11 राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री, 05 माननीय केन्द्रीय मंत्री, 03 माननीय उप मुख्यमंत्री, 03 माननीय उप राज्यपाल, 27 राज्यमंत्री तथा 81 अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। श्री ए.के. सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध

निदेशक, एनएचपीसी ने अनंतताम (केंद्र शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर) से इस कार्यक्रम में भाग लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विद्युत् मंत्रालय की प्रमुख पुनोत्थान वितरण क्षेत्र योजना का भी शुभारंभ किया जिसका उद्देश्य विद्युत् वितरण कंपनियों को परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करना है। वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक पांच वर्षों की अवधि में 3,03,758 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इस योजना का उद्देश्य वितरण बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसका



उद्देश्य वितरण की विश्वसनीयता और अंतिम उपभोक्ता तक आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस योजना में पूरे देश में उपभोक्ताओं को 25 करोड़ स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपलब्ध कराने की भी प्रस्ताव है। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने रूफटॉप सोलर के लिए राष्ट्रीय पोर्टल भी लॉन्च किया जो रूफटॉप सोलर प्लांट्स की स्थापना की प्रक्रिया को ऑनलाइन ट्रैकिंग, आवेदनों को पंजीकृत करने, आवासीय उपभोक्ताओं (लाभार्थियों) के बैंक खाते में स्थापना और निरीक्षण के बाद सब्सिडी जारी करने तक का कार्य करेगा। नेशनल रूफटॉप सोलर

कार्यक्रम के तहत अनुमानित क्षमता 4000 मेगावाट है। यह राष्ट्र की रूफटॉप सोलर क्षमता को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा और COP-26 में प्रतिबद्ध गैर-जीवाश्म ईंधन के माध्यम से 500 GW ऊर्जा का उत्पादन करने के भारत के लक्ष्य में योगदान देगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तेलंगाना में 100 मेगावाट रामागुंडम और केरल में 92 मेगावाट कामकुलम में 2 प्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित किया जो 7.5 लाख से अधिक मेड इन इंडिया सौर मॉड्यूल का दूसरा सबसे बड़ा प्लोटिंग सोलर संयंत्र हैं। माननीय प्रधान मंत्री ने एनटीपीसी की तीन

प्रमुख हरित ऊर्जा परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी- राजस्थान में 735 मेगावाट की नोख सौर परियोजना, लोह में ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना और गुजरात में प्राकृतिक गैस के साथ कावास हीलियम समिश्रण परियोजना। ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट भारत में सार्वजनिक उपयोग के लिए फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (एएचडब्ल्यू) की पहली तेजाती है। इन सभी 5 परियोजनाओं की अनुमानित लागत 5000 करोड़ रुपये है। एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, मध्य प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर व अरुणाचल प्रदेश के 74 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इन कार्यक्रमों में विद्युत् क्षेत्र के पिछले आठ वर्षों की उपलब्धियों को दर्शाती लघु फिल्मों का प्रदर्शन, प्रकृष्ट नाटक का मंचन, विद्युत् क्षेत्र की 20 दशती प्रदर्शनी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन आयोजनों में स्थानीय जन-प्रतिनिधि एवं स्थानीय जनता के साथ-साथ स्थानीय विद्यार्थियों ने बड़-चढ़ कर भाग लिया।

भाजपा गुजरात की तरह दिल्ली में भी नकली शराब बेचना चाहती है इसलिए अफसरों और दुकान वालों को दे रही है ईडी-सीबीआई की धमकियां : सिसोदिया

दिल्ली में अवैध शराब बेचने के भाजपा का प्लान होगा फेल, अब केवल वैध सरकारी दुकानों पर ही होगी शराब की बिक्री

प्राफुल्ल राय/गौरवशाली भारत



नई दिल्ली। ईडी-सीबीआई का डर दिखाकर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में शराब की वैध दुकानों को बंद करवाना चाहती है और यहाँ भी गुजरात की तरह अवैध नकली शराब बेचना का अपना धंधा शुरू करना चाहती है। भाजपा दुकानदारों को डरा-धमकाकर उन्हें अपनी दुकान छोड़ने को मजबूर कर रही है। भाजपा ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों को भी इतना डरा दिया है कि वो खाली दुकानों का टैंडर करने से डर रहे हैं। इन सब के पीछे भारतीय गुजरात में नकली शराब बेचने का एक मकसद पूरा नहीं होने देगी इसलिए दिल्ली में नई पॉलिसी को बंद कर 1 अगस्त से सरकारी दुकानों में ही शराब की बिक्री होगी। उपमुख्यमंत्री ने इस बाबत मुख्य-सचिव को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि सरकारी शराब की दुकानों में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार न हो और वहाँ अवैध शराब न बिके।

सिसोदिया ने कहा कि आज देश में 2 तरीके की शराब नीति है। एक तरफ गुजरात जहाँ शराबबंदी के नाम पर भाजपा के लोग हजारों करोड़ों की नकली शराब बनाते-बेचते हैं, सरकार को चूना लगाते हैं। आज सभी मीडिया

में यह खबर छई हुई है कि किस तरह गुजरात में भाजपा के नेता अपने घरों में ही नकली शराब बना रहे हैं, बीच रहे हैं। और इस नकली जहरीली शराब को पीने से लोगों की मौत हो रही है। उन्होंने कहा कि गुजरात में नकली शराब पीने से लोगों की मौत होने का यह पहला मामला नहीं है। यहाँ हर दूसरे-तीसरे साल कई ऐसे मामले सामने आते हैं जहाँ जहरीली शराब पीकर लोगों की मौत होती है। और पड़ताल में पता चलता है कि इस जहरीली शराब के बनाने और बेचने के पीछे भाजपा के लोगों ही होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि गुजरात में नकली शराब पीकर लोगों को जान जा रही है वही नकली शराब बेचकर भाजपा वालों का ये अवैध धंधा दिन दोगुनी- रात चौगुनी तर्की कर रहा है। इसके विपरीत दिल्ली को मॉडल है जहाँ सरकार ने पिछले साल एक नई एक्ससाइज पॉलिसी बनाई। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि 2021-22

में इस पॉलिसी के लागू होने से पहले दिल्ली में शराब की ज़्यादातर सरकारी दुकानों की और इनमें खूब भ्रष्टाचार होता था। साथ ही यहाँ कुछ प्राइवेट दुकाने भी थी जिससे बहुत कम लाइसेंस फीस ली जाती थी और सालों से उनकी लाइसेंस फीस भी नहीं बढ़ाई गई थी। उन्होंने आगे कहा कि, दिल्ली सरकार ने इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए नई पॉलिसी बनाई और पारदर्शी तरीके से लाइसेंस की दुकानों को टैंडर किया। एक्ससाइज पॉलिसी 2021-22 से पहले दिल्ली में शराब कि 850 दुकाने थी। नई पॉलिसी में भी यह निर्णय लिया गया कि इसमें भी शराब की 1 भी दुकान नहीं बढ़ाई जाएगी। उन्होंने बताया कि पुरानी नीति से सरकार को हर साल 6,000 करोड़ का राजस्व मिलता था लेकिन नई पॉलिसी के बाद यदिय सभी दुकाने खुल जाए तो पूरे साल में सरकार का राजस्व 1.5 गुणा से भी ज्यादा बढ़कर 9,500 करोड़ हो जाता।

‘हिंदी साहित्य में मुस्लिम साहित्यकारों का योगदान’ का विमोचन किया गया

आनंद राय/गौरवशाली भारत



नई दिल्ली। डॉ. आसिफ उमर को पुस्तक 'हिंदी साहित्य में मुस्लिम साहित्यकारों का योगदान' का विमोचन किया गया. डॉ. आसिफ उमर, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं. यह पुस्तक खुसरो फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित की गयी है. पुस्तक विमोचन का आयोजन खुसरो फाउंडेशन एवं इण्डिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के संयुक्त तत्वाधान में किया गया. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार एवं विचारक श्री वेदप्रताप वैदिक जी थे. कार्यक्रम में विशेष अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में हेलीमा अज़ीज़, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. डॉ. अफ़रोजुल हक़ तथा निदेशक लेखारिषा के डायरेक्टर श्री मोहम्मद परवेज़ आलम ने शिरकत की. कार्यक्रम का संचालन प्रो. अख़रूल्लास ने किया। मुख्य अतिथि श्री वेदप्रताप वैदिक जी ने अपने

वक्तव्य में पुस्तक की सराहना करते हुए कहा कि यह पुस्तक गंगा-जमुनी तटजीव को समझने में अत्यंत सहायक होगी. हिंदी भाषा और साहित्य की सेवा भारतीयों ने बरग भेदभाव के की है और हिंदी ने भी सभी को सामान नजर से देखा है. उन्होंने कहा कि डॉ. आसिफ उमर, हिंदी साहित्य के पूरे दौर का सफ़र कर के पाठकों के सामने एक ज्ञानवर्धक और तथ्यपरक पुस्तक लाते हैं. विमर्शों के इस दौर में इस तरह की पुस्तकों की बेहद आवश्यकता है. यह पुस्तक समाज की उस एकता को दृष्टिगोचर करता है कि कोई भी साहित्य किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता है. वैदिक जी ने खुसरो फाउंडेशन के डायरेक्टर प्रो. अख़रूल्लास व डॉ.

है कि इसकी कोई सीमा नहीं है. यह मनुष्य के जितने, धर्म, संप्रदाय आदि में बाँट कर नहीं देखता. यह सभी को सुजना का एक समान अवसर देता है. इसलिए अब यह विषय बेमानी हो गया है कि हिंदी लिखने या बोलने वाले कौन हो सकते हैं. हिंदी भाषा और साहित्य ने अपने आगोश में कई भाषाओं के शब्दों को जगह दी है. इसीलिए हिंदी साहित्य का फलक अत्यंत व्यापक हो जाता है. उन्होंने आगे कहा कि जैसा कि इस पुस्तक का विषय है- हिंदी साहित्य में मुस्लिम साहित्यकारों का योगदान. पुस्तक के शीर्षक से ही ज्ञात हो जाता है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक दौर से ही विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय के साहित्यकारों ने हिंदी भाषा में साहित्य लिखना आरंभ कर दिया था। पुस्तक विमोचन के अवसर पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया, दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, अंबेडकर विश्वविद्यालय आदि के अध्यापक में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

लहलुहान अवस्था में मिला कारोबारी का शव

फ़्री कोविड-19वैक्सिनेशन कैम्प का आयोजन

पूर्वांचल भूमिहार ब्राह्मण परिवार ट्रस्ट एन0सी0आर0 गाजियाबाद से सम्बद्ध ब्रह्मर्षि परिवार के समस्त सम्मानित बन्धुओं को सम्मानन सूचित किया जाता है कि दिनांक-2-8-2022, दिन मंगलवार को ट्रस्ट के सौजन्य सेफ़ी कोविड-19, वैक्सिनेशन कैम्पका आयोजन किया गया है। वैक्सिनेशन कार्यक्रम ट्रस्ट के मुख्य कार्यलय-58श्यामपार्क मेन*श्री बालाजी साडीज *पर सम्पन्न होना है। यह स्थान श्याम पार्क मेट्रो स्टेशन के पीछे गेट नं-3, के सामने स्थित है। समस्त सम्मानित बन्धुओं से कबबद्ध अनुरोध है कि जिनमें, वैक्सिने के सभी डोज नहीं लग सके हैं वे आवश्यक रूप से वैक्सिने स्वयं भी लगवाए, परिवार के समस्त सदस्यों को लगवाने के साथ ही अपने पड़ोसियों एवं अन्य परिचित बन्धुओं को वैक्सिने सम्मानन हेतु प्रेरित करने की कृपा करें। ब्रह्मर्षि परिवार ने लम्बे,सर्व श्री.के.उत्कृ. डिप्टी डिविजनल वॉर्डन सिविल डिफेंस के सहयोग से इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का सुअवसर प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम दिन के 10बजे,प्रारम्भ होकर शायं 4बजे,तक जारी रहेगा।

नोएडा। सेक्टर-41 में शुक्रवार सुबह कारोबारी का शव उनके घर में लहलुहान अवस्था में मिला। उनकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि 57 वर्षीय कारोबारी अनिल आनंद सेक्टर 41 स्थित ई ब्लॉक में रहते थे। वह सुबह अपने घर पर लहलुहान अवस्था में मृत मिले। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस को शक है कि बुजुर्ग शराब के नशे में अपने घर में गिर गया। इस दौरान चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। आसपास के लोगों ने बुजुर्ग की हत्या की आशंका जाहिर की है।

पिछले समय वैक्सिने लगवाने में जो पहचान पत्र दिया गया है, अथवा आधार कार्ड 2 मोबाइल 3 पिछला, वैक्सिने लगवाने का प्रमाण-पत्र (यदि उपलब्ध है) आप समस्त सम्मानित बन्धुओं से सादर अनुरोध है कि इस जीवन प्रदाई सुन्दर अवसर का लाभ अवश्य उठाने की कृपा करें। ---योगेन्द्र राय--ट्रस्टी

संपादकीय

नोट से वोट और वोट से नोट
कमाना ही राजनीति का मूल मंत्र है

पिछले एक सप्ताह में जो भी नकदी, सोना, गहने आदि छापे में मिले हैं, उनकी कीमत 100 करोड़ रु. से भी ज्यादा का ही अनुमान है। यदि जांच निदेशालय के चंगुल में उनके कुछ अन्य मंत्री भी फंस गए तो यह राशि कई अरब तक भी पहुंच सकती है।

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार भयंकर दुर्गति को प्राप्त हो गई है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ममता बनर्जी की सरकार इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर सकती है। ममता के राज में मैं जब-जब कोलकाता गया हूँ, वहां के कई पुराने उद्योगपतियों और व्यापारियों से बात करते हुए मुझे लगता था कि ममता के डर के मारे अब वे कोई गलत-सलत काम नहीं कर पा रहे होंगे लेकिन उनके उद्योग और व्यापार मंत्री पार्थ चटर्जी को पहले तो जांच निदेशालय ने गिरफ्तार किया और फिर उनके निजी सहायकों, मित्रों और रिश्तेदारों के घरों से जो नकद करोड़ों रु. की राशियां पकड़ी गई हैं, उन्हें टीवी चैनलों पर देखकर दंग रह जाना पड़ता है। अभी तो उनके कई प्लेटों पर छापे पड़ना बाकी है।

पिछले एक सप्ताह में जो भी नकदी, सोना, गहने आदि छापे में मिले हैं, उनकी कीमत 100 करोड़ रु. से भी ज्यादा का ही अनुमान है। यदि जांच निदेशालय के चंगुल में उनके कुछ अन्य मंत्री भी फंस गए तो यह राशि कई अरब तक भी पहुंच सकती है। बंगाल के मारवाड़ी व्यवसायियों का खून चूसने में ममता सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। पार्थ चटर्जी सिर्फ तीन विभागों के मंत्री ही नहीं हैं। उन्हें ममता बनर्जी का उप-मुख्यमंत्री माना जाता है। इस हैसियत में ममता का सारा लोभ-देन वही करते रहे हों तो कोई आश्चर्य नहीं है। वे पार्टी के महामंत्री और उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्हें बंगाल के लोग पार्टी की नाक मानते रहे हैं। इसीलिए उनकी गिरफ्तारी के छह दिन बाद तक उनके खिलाफ पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की बल्कि उल्टा चोर कोतवाला को डांटता रहा।

तृणमूल के नेता भाजपा सरकार पर प्रतिक्रिया का आरोप लगाते रहे। अब जबकि सारे देश में ममता सरकार की बदनामी होने लगी तो कुछ होश आया और पार्थ चटर्जी को मंत्रिपद तथा पार्टी की सदस्यता से बर्खास्त किया गया है। यह बर्खास्तगी नहीं, सिर्फ मुअत्तिली है, क्योंकि पार्टी प्रवक्ता कह रहे हैं कि जांच में वे खरे उतरेंगे, तब उनको उनके सारे पदों से पुनः विभूषित कर दिया जाएगा। यह मामला सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के भ्रष्टाचार का ही नहीं है। देश की कोई भी पार्टी और कोई भी नेता यह दावा नहीं कर सकता कि वे भ्रष्टाचार-मुक्त हैं। भ्रष्टाचार के बिना यानि नैतिकता और कानून का अलंघन किए बिना कोई भी व्यक्ति वोटों की राजनीति कर ही नहीं सकता। रुपयों का पहाड़ लगाए बिना आप चुनाव कैसे लड़ेंगे? अपने निर्वाचन-क्षेत्र के पांच लाख से 20 लाख तक के मतदाताओं को हर उम्मीदवार कैसे पढ़ाएगा? नोट से वोट और वोट से नोट कमाना ही अपनी राजनीति का मूल मंत्र है। इसीलिए हमारे कई मुख्यमंत्री तक जेल की हवा चुके हैं। नोट और वोट की राजनीति विचारधारा और चरित्र की राजनीति पर हावी हो गई है। यदि हम भारतीय लोकतंत्र को स्वच्छ बनाना चाहते हैं तो राजनीति में या तो आचार्य चाणक्य या प्लेटो के 'दार्शनिक नेता' जैसे लोगों को ही प्रवेश दिया जाना चाहिए। वरना आप जिस नेता पर भी छाप डालेंगे, वह आपको कौंचड़ में सना हुआ मिलेगा।

देश के क्रमिक विकास के सोपान
में महिलाओं की ज्यादा और
सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित हो

भारतीय गणतंत्र में 15वीं राष्ट्रपति के रूप में महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के निर्वाचित होने के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण और आदिवासी महिलाओं के लिए विकास के नए द्वार खुलने की संभावनाएं बलवती हो गई हैं। माननीय राष्ट्रपति को महिलाओं के संघर्ष, जिजीविषा और नैतिक मूल्यों की पोषक होने का पर्याय माना जा रहा है। उनके राष्ट्रपति चयनित होने के साथ-साथ आदिवासी वर्ग में और खासकर समग्र रूप से महिलाओं में नई ऊर्जा, शक्ति तथा उत्साह का संचार हुआ है। अब भारत देश के क्रमिक विकास में महिलाओं की भागीदारी में निश्चित तौर पर इजाफा होना चाहिए, आदिवासी महिला के सर्वोच्च राष्ट्रपति जैसे परिणामार्थ पद में चयन होना भारतीय लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। वर्तमान में भारत की विशाल जनसंख्या में 45% भागीदारी महिलाओं की है। महिलाओं को अभी उनके हक का अधिकार एवं भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पा रही है, ऐसे में रक्षा प्रतिरक्षा क्षेत्र में महिलाओं को भर्ती एक अच्छे संकेत के रूप में सामने आ रही है। यह है। महिलाओं के समय में महिलाएं सभी क्षेत्रों में साहस, शौर्य और ऊर्जा का बेहतरीन प्रदर्शन करते आ रही हैं, महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर काम में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। अब इसमें सशस्त्र बलों यानि डिफेंस सर्विस भी अछूता नहीं रहा सबसे बड़ी बात स्वतंत्र भारत की दूसरी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण बनी थीं इसके पूर्व श्रीमती इंदिरा गांधी प्रथम रक्षा मंत्री रही थीं अब कोई भी क्षेत्र ऐसा अछूता नहीं रहा जहां महिलाओं ने अपनी सशक्त बलवती पंख फैलाकर ना कराई हो, यह तो पूर्व से ही कहा गया है यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो सिर्फ एक पुरुष शिक्षक होता है किंतु यदि आप किसी महिला को सर्वांगीण शिक्षा देते हैं तो आने वाली संपूर्ण पीढ़ी को शिक्षित कर रहे हैं। नारी शक्ति को अब ज्यादा दिनों तक देश की प्रगति विकास के योगदान से परे नहीं रखा जा सकता है। यह परिवार की धुरी महिलाएं होती हैं परिवार से पर बनता है घर से समाज और समाज और संपूर्ण समाज से एक सशक्त राष्ट्र की बुनियाद रखी जाती है। इस तरह देश की बुनियाद ही स्त्री सशक्तिकरण है। यह महिलाएं अच्छी तरह समझती हैं कि घर से लेकर देश की सीमा तक उन्हें व्यवहार कर देश के विकास और उसकी रक्षा में उन्हें किस तरह योगदान देना है। महिलाओं के बिना देश की प्रगति एवं विकास की कल्पना सर्वथा बेमानी है। यह सशक्त माताएं सशक्त राष्ट्र का निर्माण करती हैं और सोव्या रक्षा बलों में महिलाओं की भागीदारी इसका एक बड़ा उदाहरण और प्रतिकल है। इन उदाहरणों में से प्रथम लेफ्टिनेंट सुनीता अरोड़ा, प्रथम एयर मार्शल पद्मवती बंदोपाध्याय, कैप्टन मिताली मधुमिता, भारत में आए अमेरिकी राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर देने वाली प्रथम विंग कमांडर पूजा ठाकुर ऐसे अधिकारियों के नाम हैं जिन्होंने रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है एवं महिलाओं के प्रति सारी अवधारणाओं को गलत साबित कर एक सशक्त स्त्री को निरूपित किया है। महिलाओं की शारीरिक बनावट तथा उनके शारीरिक विन्यास को देखते हुए प्रतिरक्षा सेवा में उनकी भूमिका बहुत कम रही है, हम मां दुर्गा भवानी की पूजा करते हैं और महिलाओं को कमजोर समझते हैं। किंतु उनकी शक्ति को उनकी भागीदारी को अंततः स्वीकार किया गया और 1992 में पहली बार भारतीय सेना में महिलाओं के लिए द्वार खोले गए एवं 25 महिला कैडेटेट को ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया में ट्रेनिंग दी गई इससे पूर्व सिर्फ चिकित्सा सेवा में महिलाओं को नियुक्त किया जाता रहा है। सेना में इनकी भागीदारी होते हुए भी इन्हें पुरुषों के समान अधिकार नहीं दिए गए थे, महिलाएं रक्षा सेवा में विधिक, शिक्षा, इंजीनियरिंग, इंटील्लिजेंस तथा ऐयर सिग्नल कोर में अपनी सेवाएं देती रही हैं।

शराब, बवाल, सीबीआई और -यू टर्न, 400 से अधिक प्राइवेट दुकानों का क्या होगा? जानें दिल्ली सरकार की नई-पुरानी लिकर पालिसी का पूरा कॉकटेल

अभिनव आकाश

दिल्ली के नए एलजी ने नई आबकारी नीति पर सीबीआई जांच की सिफारिश क्या कि दिल्ली सरकार बैकफुट पर आती नजर आई। अब चर्चा ये है कि केजरीवाल सरकार दिल्ली में फिर से पुरानी पालिसी लागू करने जा रही है। जिसके बाद लग रहा है कि दिल्ली में दार के ठेकों को लेकर मचा विवाद थम जाएगा या फिर इससे कई नए विवाद खड़े हो जाएंगे।

एक मशहूर गाना आपने भी जरूर सुना होगा- एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में, आब-ओ-दाना ढूँढता है। आज आब यानी शराब में दाना यानी पैसे और रिश्त दूँढने का विश्लेषण करें। आरोप लगा कि दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति में शराब और करप्शन का कॉकटेल बना दिया। आरोप ये है कि शराब माफियाओं को 140 करोड़ की फीस माफ कर दी गई। दिल्ली के नए एलजी ने नई आबकारी नीति पर सीबीआई जांच की सिफारिश क्या कि दिल्ली सरकार बैकफुट पर आती नजर आई। अब चर्चा ये है कि केजरीवाल सरकार दिल्ली में फिर से पुरानी पालिसी लागू करने जा रही है। जिसके बाद लग रहा है कि दिल्ली में दार के ठेकों को लेकर मचा विवाद थम जाएगा या फिर इससे कई नए विवाद खड़े हो जाएंगे।

नई आबकारी नीति में क्या है?

दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति का ऐलान किया था जिसके तहत अब नए शराब के ठेके नहीं खोले जाएंगे। इसके साथ ही दिल्ली में शराब पीने की उम्र भी घटा दी गई। बता दें कि दिल्ली में शराब की 850 दुकानें हैं, जिनमें से 60



प्रतिशत दुकानें सरकारी और 40 प्रतिशत प्राइवेट हैं। दिल्ली में शराब पीने की उम्र घटाकर 25 से 21 की गई। दिल्ली में अब सरकार शराब की दुकानें नहीं चलाएगी। शराब की नई दुकानें भी नहीं खुलेंगी। सरकारी दुकानों की बौडिंग करवाई जाएगी। सरकारी दुकानों को प्राइवेट किया जाएगा। शराब की दुकानों को अपना एरिया बढ़ाकर 500 स्क्वायर फीट करना होगा। कोई दुकान अगर 200 स्क्वायर फीट पर होगी तो इसका एरिया भी बढ़ाना होगा शराब की दुकान की छिड़की या काउंटर सड़क की ओर नहीं होना चाहिए। वहीं उपमुख्यमंत्री ने नई आबकारी नीति लाने के पीछे मुख्यतः दो वजह बताई थी। पहली शराब माफियाओं पर नियंत्रण पाना और दूसरा सरकार का राजस्व बढ़ाना। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि शराब की दुकानों का इलाक़े के अनुसार समान वितरण होना चाहिए

और ग्राहकों के लिए शराब खरीदना सुविधाजनक होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि आबकारी नीति में बदलाव करके उन सारे फैंक्टर्स को हटाना जा रहा है जिनकी वजह से शराब माफिया अपना अवैध कारोबार चलाने में कामयाब होता है।

एलजी को किस बात पर आपत्ति

शराब की बिक्री में बंपर बढ़ोतरी की वजह थी 25 फीसदी का बंपर डिस्काउंट। शराब दुकानों पर जमकर भीड़ उमड़ी। शराब को लेकर केजरीवाल सरकार की नीतियों पर सवाल भी खड़े हुए। नवंबर 2021 में दिल्ली में जब नई आबकारी नीति लागू हुई तो जमकर विरोध हुआ। धड़ाधड़ खोली जा रही नई-नई दुकानों को लेकर लोगों ने खूब प्रदर्शन किया। लेकिन नई नीति को लेकर दिल्ली सरकार टस से मस नहीं हुई। देखते ही देखते उसी आबकारी नीति को लेकर

दिल्ली सरकार सवालों के घेरे में आ गई। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। एलजी ने नई एक्ससाइज पालिसी पर दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट के बाद ये एक्शन लिया है। इस रिपोर्ट में सीधे डिप्टी सीएम मनीष विसोदिया का नाम लिया गया है। कहा गया कि इस नई शराब नीति के जरिये नए लाइसेंस धारियों को फायदा पहुंचाया गया। इस एक्शन के बाद बीजेपी और आप के बीच घमासान मच गया। केजरीवाल ने भगत सिंह और सावरकर के नाम का हथियार उठा लिया।

केजरीवाल सरकार बैकफुट पर

एक्ससाइज पालिसी को लेकर अब केजरीवाल सरकार बैकफुट पर आती नजर आ रही है। नई एक्ससाइज पालिसी 2022-23 को वापस लिए जाने की तैयारी चल रही है। 1 अगस्त

से अगले 6 महीने तक आबकारी नीति की पुरानी व्यवस्था को ही लागू रखा जाएगा। दिल्ली सरकार अपनी नई एक्ससाइज पालिसी 2022-23 वापस लेगी, जिसे लागू करने का ऐलान किया गया था।

अब पुरानी 2021-22 की ही पालिसी को लागू रहने दिया जाएगा। जिसे मार्च में एक्सटेंशन देकर अगले 2-2 महीने बढ़ाया गया। 25 फीसदी डिस्काउंट मिलने के बाद फरवरी में शराब की बिक्री ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।

फिर से खुलेगी शराब की सरकारी दुकानें

दिल्ली में एक बार फिर से शराब की सरकारी दुकानें खुल सकती हैं। नई पालिसी के सीबीआई जांच के दायरे में आ जाने के बाद दिल्ली सरकार कुछ समय के लिए फिर से पुरानी पालिसी को ही लागू करने पर विचार

कर रही है। इस संबंध में तमाम विभागों से जानकारी मांगी गई है कि पहले किस जगह शराब की दुकानें थीं, उन्हें कौन चला रहा था, वहां कितने लोग तैनात थे, परिसर किराए पर था या किसी कंपनी का था और अभी वह जगह खाली है या वहां कोई और शॉप खुल गई है। सरकार को अगले दो दिन में इस पर फैसला करना है, क्योंकि पिछली पालिसी की विस्तारित समय सीमा रविवार को खत्म हो रही है। सूत्रों का कहना है कि अभी 6 महीने के लिए पुरानी पालिसी को लागू करने पर विचार चल रहा है।

नई नीति के तहत खोली गई 400 से अधिक प्राइवेट दुकानों का क्या?

दिल्ली सरकार उन चारों कॉरपोरेशंस से बात करके इसे अमलीजामा पहनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि, सबसे बड़ा सवाल यही है कि किस आबकारी नीति के तहत डीएसआईआईसी, डीटीटीडीसी, डीसीसीएस्सीएस और डीएससीएससी को फिर से शराब की दुकान खोलने की अनुति किस नियम के तहत दी जाएगी और अगर सरकारी दुकानें फिर से खुल जाती हैं तो नई नीति के तहत खोली गई 400 से अधिक प्राइवेट दुकानों का क्या होगा, क्योंकि इनका मौजूदा लाइसेंस 31 जुलाई को खत्म हो जाएगा। ऐसे में अगर इनके लाइसेंस की समयसीमा नहीं बढ़ी तो दिल्ली में 1 अगस्त से शराब की ये दुकानें बंद हो जाएंगी और दिल्लीवालों को किसी भी तरह की शराब और बिजय खरीदने को नहीं मिलेगी। हालांकि, इसे लेकर अभी फिलहाल स्थिति साफ नहीं है।

ममता बनर्जी तो हमेशा अपनों का साथ देती है, इस बार पार्थ चटर्जी को अकेला क्यों छोड़ें?

देश दुनिया के विभिन्न मुद्दों पर प्रभासाक्षी के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में हर सप्ताह चर्चा होती है। इस बार के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में भी हमने पश्चिम बंगाल में बर्खास्त मंत्री पार्थ चटर्जी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई और कर्नाटक में भाजपा के युवा नेता की हत्या पर चर्चा की। हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद रहे प्रभासाक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे। नीरज कुमार दुबे से हमने पहला सवाल पश्चिम बंगाल को लेकर ही किया। हमने नीरज दुबे से पूछा कि क्या पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से पार्थ चटर्जी की करीबी कि यहां से 55 करोड़ से ज्यादा की कैश बरामद हुए हैं, उससे ममता बनर्जी बैकफुट पर है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो बंगाल से दृश्य आ रहे हैं, वहां के लोगों को ही नहीं, बल्कि यह पूरे देश के लोगों को भी हिंसा देने वाले दृश्य हैं। कैसे एक मंत्री के करीबी के यहां से नोटों का पहाड़ बरामद हो रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों के मन में यह सवाल जरूर हो रहे होंगे कि अगर एक मंत्री के पास इतना सारा पैसा है तो अन्य मंत्री जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, उनके पास किसे पैसे होंगे। इसके साथ ही नीरज दुबे ने यह भी सवाल कर दिया कि पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के पास क्या इतने ही पैसे थे? उन्होंने दावा किया कि इंडी के सूत्र जो बता रहे हैं उसके मुताबिक अभी और भी बड़े खुलासे होने बाकी हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और राजनीति में भ्रष्टाचार ने अपनी जड़ें कितनी मजबूत कर रखी है, उसका यह जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने कहा कि पार्थ चटर्जी पश्चिम बंगाल में नंबर दो के मंत्री थे। तृणमूल कांग्रेस में भी उनकी हैसियत बड़ी थी। अगर बड़े मंत्री इस तरह के काम करते हैं तो सोचिए नीचे के लोग क्या करते होंगे। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार पर कट मनी के आरोप लगते हैं उसमें अब कहीं ना कहीं सच्चाई दिखने लगी है। उन्होंने कहा कि अगर नोटों के पहाड़ ऐसा ही मिलते जाएं तो यह सवाल तो उठेगा ही ना कि इतना पैसा आया कहा से?

हमें पसन्द आया

तुहारी दुश्मनी का अंदाज हमें पसन्द आया।।

बड़ी शिद्दत से निभाई है तुमने अदावत, तुहारी दुश्मनी का अंदाज हमें पसन्द आया।।

अभी मासूम हो, रंजिश करने की नहीं उम्र, गुस्से से होता चेहरा लाल हमें पसंद आया।

रखीव की मानिंद तिरछी नजरो से न देखो, आँखों का कालिलाना कहर हमें पसंद आया।

आते तो हो हर हंसी शाम सुलह के लिए, बीच बीच में हो जाना नाजज हमें पसंद आया।

तेरी दुश्मनी का अंदाज भी फकत हसीन है, रूबरू न आकर, खाव में लेना खबर हमें पसंद आया।

खुदा ने सारी नफासत बकशी है सिर्फ तुम्हें, कभी भी बिजली सा कड़क जाना हमें पसंद आया।

अब लौट कर न आएं कभी, कहकर जाती हो, फिर अगली सँझ तेरा आना नजर हमें पसन्द आया।

दक्षिण एशियाई देश अब समझ चुके हैं कि चीन से मिली मदद देती है सिरदर्द

प्रह्लाद सबनानी

चीन ने कई देशों को अपनी महत्वाकांक्षी सीपीईसी (आर्थिक गतिधारा) योजना में भी शामिल कर एक और कर्ज के जाल में फंसाया है। अब तो इनमें से कुछ देशों की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और ऐसा शायद इनमें से कुछ देशों द्वारा भारत के ही एक अन्य पड़ोसी देश चीन से लिए गए बहुत बड़ी राशि के कर्ज के चलते हो रहा है। चीन ने इन देशों को पहले तो अपने प्रभाव में लिया एवं फिर इनके नई अधीनस्थाना सम्बंधों सुविधाएं विकसित करने के उद्देश्य से ऊंची ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया और जो योजनाएं विकसित करने हेतु

चुनी गईं उनसे अब इतनी आय भी अर्जित नहीं हो पा रही है कि इन ऋणों के ब्याज का भुगतान भी किया जा सके।

दूसरे, चीन ने इनमें से कई देशों को अपनी महत्वाकांक्षी सीपीईसी (आर्थिक गतिधारा) योजना में भी शामिल कर एक और कर्ज के जाल में फंसाया है। अब तो इनमें से कुछ देशों की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और ऐसा शायद इनमें से कुछ देशों द्वारा भारत के ही एक अन्य पड़ोसी देश चीन से लिए गए बहुत बड़ी राशि के कर्ज के चलते हो रहा है। चीन ने इन देशों को पहले तो अपने प्रभाव में लिया एवं फिर इनके नई अधीनस्थाना सम्बंधों सुविधाएं विकसित करने के उद्देश्य से ऊंची ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया और जो योजनाएं विकसित करने हेतु

इस प्रकार आज चीन की श्रीलंका में हंबनटोटा से कोलम्बो तक आसान उपस्थिति हो गई है। यही हाल पाकिस्तान का भी है। पाकिस्तान आज चीन के बने जाल में इस प्रकार फंस गया है कि, सुना तो यहां तक जा रहा है कि, पाकिस्तान आज अपने विदेशी ऋणों के ब्याज एवं किस्तों का भुगतान करने हेतु, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि करने के उद्देश्य से, अपने देश की कई अहम संपत्तियों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नीलामी करने पर विचार कर रहा है। इस प्रकार चीन ने जिस किसी देश की आर्थिक मदद की है। इसीलिए चीन को आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय स्थिति में पहुंचा कर उस देश की परिस्थितियों पर अपना कब्जा करने का प्रयास किया है। इसीलिए चीन तो यह भी कहा जा रहा है कि चीन एक उपनिवेशिक मानसिकता वाला देश है एवं अपने पड़ोसियों को गुलाम बनाने के लिए उक्त प्रकार के काम करता रहता है। श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव, लाओस आदि देशों को अपने जाल में फंसाने के बाद

बांग्लादेश, नेपाल, भूटान जैसे देशों की भी अपने प्रभाव में लेने का प्रयास चीन कर रहा है। भारत की तुलना में आज चीन आर्थिक दृष्टि से अधिक मजबूत राष्ट्र है। परंतु, चीन अपने पड़ोसी एवं अन्य देशों की मदद एक खास मकसद को प्राप्त करने के उद्देश्य से करता है, जैसे कि किस प्रकार इन पड़ोसी देशों को अपने कब्जे में लिया जाये और इनकी परिस्थितियों पर अपना हक जमाया जाये। इसके ठीक विपरीत भारत अपने पड़ोसी एवं अन्य देशों की आर्थिक मदद निस्वार्थ भाव से करता है। आज तक का इतिहास देखने में ध्यान में आता है कि भारत ने कभी भी किसी भी देश का एक इंच मात्र भूमि का टुकड़ा भी नहीं हथियाया है। हालांकि भारत की आर्थिक परिस्थितियां चीन की तुलना में उतनी मजबूत नहीं हैं कि अपने पड़ोसी देशों को खुलकर मदद कर सके परंतु फिर भी भारत ने अपना बड़ा दिव्यतंत्र हुए विपरीत परिस्थितियों के बीच भी हाल ही के समय में श्रीलंका की वास्तविक मदद की है।

मुंशी प्रेमचंद जयंती 31 जुलाई 2022 पर विशेष



साहित्य जगत का अनमोल नायाब हीरा मुंशी प्रेमचंद जिसने यथार्थवादी लेखन से समाज में जागरूकता का संचार किया

हिंदी साहित्य जगत में मुंशी प्रेमचंद जैसा अनमोल रत्न न कोई हुआ न कोई होगा - एड किशन भावनानी

गोंदिया - वैश्विक स्तर पर आदि अनादि काल से अनेक क्षेत्रों में अनेक अनमोल व्यक्तियों का पुजन हुआ है। स्थितियों परिस्थितियों के अनुसार उनको अनमोल कौशलता उनको विरासत, गॉड गिफ्टेड, अपनी मेहनत, अपने बौद्धिक कौशलता से मिला है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण स्रजन सामान्यतः उस व्यक्तित्व पर लिया जाता है जिसको बिना किसी विरासत, गॉड गिफ्टेड के अपनी मेहनत संपर्ष

काबिलियत और बौद्धिक क्षमता के आधार पर सफलताओं के झंडे गाड़कर न सिर्फ अपने कौशलता से अपने उस साहित्यिक या किसी अन्य क्षेत्र से न केवल अपने शहर, राज्य का नाम रोशन किया बल्कि अपने देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत देश की प्रतिष्ठा को भी बढ़ाया ऐसे तो अनेक एक से एक महानुभाव व्यक्तित्व हैं परंतु चूंकि 31 जुलाई को साहित्य जगत के एक तरह से पितामह मुंशी प्रेमचंद की 143 वीं जयंती है इसलिए आज उनकी साहित्य सेवा संघर्ष और बौद्धिक क्षमता पर इस आर्टिकल के माध्यम से इस हिंदी साहित्य जगत के अनमोल नायाब हीरे की बात करेंगे।

साथियों बाट अगर हम इनके व्यक्तित्व और प्रतिष्ठा प्रसिद्धि और शोहरत की करें तो मेरा मानना है कि हर कामकाजी व्यक्ति और उनकी समस्याओं का मार्मिक चित्रण किया। उनको कृतियां भारत के सर्वाधिक विशाल और विस्तृत वर्ग को कृतियां हैं।

अपनी कहानियों से प्रेमचंद मानवस्वभाव की आधारभूत महत्ता पर बल देते हैं हिंदी कथा-साहित्य को तिलस्मी कहानियों के झुरमुट से निकालकर जीवन के यथार्थ की ओर मोड़कर ले जाने वाले कथाकार मुंशी प्रेमचंद देश ही नहीं, दुनिया में विख्यात हुए और %कथा सम्राट% कहलाए।

उ-?होंने आमजन को पीड़ा को शब्दों में पिरोया, यही वजह है कि उनको हर रचना कालजयी है।

साथियों संस्कृति के श्लोकों में भी आया है, विद्वत् के गुणत्व च नैव तुल्यं कदाचन। स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते।। अर्थ एक विद्वान और राजा की कभी कोई तुलना नहीं की जा सकती। क्योंकि राजा तो केवल अपने राज्य में सम्मान पाता है वही एक विद्वान हर जगह सम्मान पाता है। प्रेमचन्द के उपन्यास हैं- गबन, बाजार-ए-हुस्न (उर्दू में), सेवा सदन, गोदान, कर्मभूमि, कायाकल्प, मनोरमा, निर्मला, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, वरदान प्रेमा और मंगल सूत्र (अपूर्ण) प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां तथा चौदह बड़े उपन्यास लिखे. सन् 1935 में मुंशी जी बहूत बीमार पड़ गए और 8 अक्टूबर 1936 को 56 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया उनके रचे साहित्य का विदेशी सहित लगभग सभी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है।

प्रेमचंद ऐसे कालजयी उपन्यासकार थे, जिन्होंने अपनी लेखनी के दम पर पूरे विश्व में पहचान बनाई। मुंशी प्रेमचंद का व्यक्तित्व बड़ा ही साधारण था। उनके निधन के 87 वर्ष बाद भी उनकी कालजयी रचना 'कफन', 'गबन', 'गोदान', 'ईदगाह' और 'नमक का दरगा' हर किसी को

बचपन की याद दिलाती है। साथियों बात अगर हम मुंशी प्रेमचंद की धनपत राय श्रीवास्तव से नवाब राय फिर प्रेमचंद और फिर मुंशी प्रेमचंद बने की गाथा की करें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अनुसार, 31 जुलाई 1880 को जन्मे प्रेमचंद एक महान लेखक होने के साथ-साथ आम जनता के लेखक भी हैं। उनका असली नाम धनपत राय लेकिन साहित्य में उनकी ख्याति ने उन्हें प्रेमचंद बना दिया।

वे हिंदी के साथ-साथ उर्दू लेखन भी करते थे। उर्दू लेखन में उन्होंने अपना नाम नवाब राय रखा था। धनपत राय के दादा गुरु सहाय राय और पिता अजायब राय दोनों के नाम में मुंशी नहीं था तो फिर उनका नाम मुंशी कैसे पड़ा आइए जानते हैं। हुआ यू? कि मशहूर विद्वान और राजनेता कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने महात्मा गांधी की प्रेरणा से प्रेमचंद के साथ मिलकर हिंदी में एक पत्रिका निकाली, नाम रखा गया - 'हंस'। यह 1930 की बात है। पत्रिका का संपादन केएम मुंशी और प्रेमचंद दोनों मिलकर किया करते थे। तब तक केएम मुंशी देश की बड़ी हस्ती बन चुके थे, वे कई विषयों के जानकार होने के साथ मशहूर वकील भी थे, उन्होंने गुजराती के साथ हिंदी और अंग्रेजी साहित्य के लिए भी काफी लेखन किया।

शार्ट न्यूज

एमएलसी उपचुनाव : धर्मेन्द्र सिंह और निर्मला पासवान होंगी भाजपा की उम्मीदवार, पार्टी ने जारी की लिस्ट

लखनऊ। यूपी विधान परिषदय सदस्य की खाली दो सीटों के लिए 11 अगस्त को मतदान होगा। इसको लेकर भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। भाजपा ने गोरखपुर बीजेपी क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेन्द्र सिंह और महिला मोर्चा की नेता निर्मला पासवान को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। बता दें कि अहमद हसन के निधन होने और ठाकुर जयवीर सिंह द्वारा इस्तीफा दिए जाने के बाद एमएलसी की दो सीटें खाली हुई थीं। अहमद हसन का कार्यकाल 30 जनवरी 2027 तक और जयवीर सिंह का 5 मई 2024 तक था। एमएलसी की खाली दो सीटों के लिए 25 जुलाई को अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके बाद से नामांकन प्रक्रिया जारी है। मतदान 11 अगस्त को होगा और इसी दिन शाम पांच बजे से मतगणना होगी। नामांकन की अंतिम तिथि एक अगस्त है। इसकी जांच 2 अगस्त और नाम वापसी की अंतिम तिथि 4 अगस्त है। मतदान 11 अगस्त को प्रातः 9 से अपराहन 4 बजे तक होगा। शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी। निर्वाचन की प्रक्रिया 16 अगस्त से पहले पूरी करा ली जाएगी।

गोरखपुर में घर से कॉलेज तक छात्रा का पीछा कर मनबढ़ ने सरेआम की छेड़छाड़

गोरखपुर। गोरखपुर में एक मनबढ़ ने छात्रा का घर से कॉलेज तक पीछा किया। छात्रा से सरेआम छेड़छाानी की। छात्रा ने पिता के साथ जब थाने में इसकी शिकायत की तो मनबढ़ और उसके घरवालों ने छात्रा का घर घेर लिया और धमकी दी। देश शाम पुलिस ने इस मामले में आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया। गुलरिहा के एक गांव की छात्रा खिबिल लाईस स्थित एक कॉलेज से बीएससी कर रही है। आरोप है कि उसके गांव का युवक शुक्रवार को छात्रा का पीछा करते हुए कॉलेज तक पहुंच गया और छेड़छाानी की। शुरुआत में पुलिस ने गुलरिहा इलाके का मामला बता टालने का प्रयास किया लेकिन इंस्पेक्टर शशिभूषण राय को जानकारी हुई तो उन्होंने आरोपी अजय भारद्वाज पर केस दर्ज कर लिया। उधर, आरोपी अजय और उसके घरवालों को एफआईआर कराए जाने की जानकारी हुई तो उन्होंने छात्रा का घर घेर लिया और केस वापस न लेने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। पीड़ित परिवार की शिकायत पर गुलरिहा पुलिस ने भी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं केट थाने की पुलिस टीम ने आरोपी के घर पर छापेमारी की लेकिन वह मिला नहीं।

हाथरस में दूसरी क्लास के बच्चे को रूम में बंद कर चले गए टीचर और स्टॉफ, दस लोग सस्पेंड
हाथरस। उत्तर प्रदेश के हाथरस के एक सरकारी स्कूल में स्टॉफ और टीचर की लापरवाही के चलते दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला एक छात्र अकेले कमरे में बंद हो गया और स्कूल का छुट्टी इईं लोकन प्रेम प्रकाश बाहर से मीठा खास। बच्चे की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोगों ने किसी तरह बच्चे को स्कूल से निकाला। जानकारी के मुताबिक हाथरस जिले के एक सरकारी स्कूल में कक्षा दूसरी में पढ़ने वाला छात्र प्रेम प्रकाश नगला स्कूल में पढ़ते-पढ़ते क्लास में बंद हो गया। स्कूल की छुट्टी इईं लोकन प्रेम प्रकाश बाहर से मीठा खास। छुट्टी होने के बाद स्कूल के किसी स्टॉफ ने कमरे चेक नहीं किए और स्कूल को ताला लगाकर सब अपने-अपने घर चले गए। शाम करीब चार बजे प्रेम प्रकाश की आंख खुली तो वो दंग रह गया क्योंकि वो क्लास में बिलकुल अकेला था और दरवाजा बाहर से बंद था। तबला धबका गया और जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगा। गनीमत ये रही कि स्कूल के पास ही किसी स्थानीय ने बच्चे की चीख पुकार सुनी। आसपास के कई लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। इस बीच बच्चे के पिता भी मौके पर पहुंच गए और सबने मिलकर ताला तोड़ दिया। इसके बाद बच्चे को सकुशल बाहर निकाला जा सका। इस मामले में स्कूल प्रशासन की घोर लापरवाही को देखते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी संदीप सिंह ने सासनी के प्रखंड शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह को मामले की जांच का आदेश दिया है। इस मामले में प्रधानाध्यापक सहित दस कर्मचारियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है। संदीप सिंह ने कहा- शुरुआती जांच के बाद शुक्रवार को स्कूल के प्रधानाध्यापक, शिक्षा मित्र और शिक्षक समेत 10 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है। संदीप सिंह ने प्रशिक्षक और तीन शिक्षामित्रों की एक महीने की सैलरी काटने का भी आदेश दिया है।

भारतीय मूल के आदित्य लाटर ब्रिटेन में जीते छात्रसंघ का चुनाव

मथुरा। ब्रिटेन में एक ओर प्रधानमंत्री पद की दौड़ में भारतीय मूल के ऋषि सुनक प्रबल दावेदारी पेश कर रहे हैं, वहीं मथुरा निवासी छात्र आदित्य लाटर ने इंग्लैंड की प्रतिष्ठित डरहम यूनिवर्सिटी में पीजी अध्येक्ष का पद जीत लिया है। आदित्य लाटर के पिता एवं समाजवादी पार्टी (सपा) नेता संजय लाटर ने बताया कि 40 हजार मतदाताओं को संस्था वाले डरहम विश्वविद्यालय में 20 हजार से ज्यादा परामनातक (पीजी) के विद्यार्थी हैं। आदित्य लाटर का इस यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में नया पीजी एकेडेमिक आफिसर के रूप में निर्वाचन हुआ है। डरहम विश्वविद्यालय छात्र संघ की इंडियन सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष एवं एनयूपस के पूर्व इलेगोट आदित्य लाटर ने इस बार लखर पार्टी की ओर से डरहम विश्वविद्यालय के छात्र संघ का चुनाव लड़ा था। उन्होंने प्रथम करियता के मतीं विजयी होने के बावजूद वे चौथी करियता में मामूली मतीं से पराजित हो गए। आदित्य लाटर के पिता डा संजय लाटर उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सपा के पूर्व नेता है।

कौशल राउत शर्मा बने रहेंगे वाराणसी के डीएम

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के स्थानांतरण आदेश को रद्द करते हुए उनकी तैनाती को यथावत रखा है। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के कुछ अधिकारियों के स्थानांतरण की सूची शुक्रवार को जारी की थी। इसमें शर्मा को प्रयागराज मंडल का आयुक्त बनाया गया था। सरकार ने 2006 बैच के आईएएस अधिकारी शर्मा का तबादला आदेश शनिवार को रद्द कर दिया। राज्य सरकार के नियुक्ति अनुभाग में विशेष सचिव धनंजय शुक्ला की ओर से जारी आदेश में कहा गया है प्रयागराज मंडल के आयुक्त पद पर किया गया शर्मा का स्थानांतरण जनहित में रद्द किया जाता है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी शर्मा को पूर्व आदेश के तहत प्रयागराज के मंडल आयुक्त संजय गोयल की जगह स्थानांतरित किया गया था। गोयल को झांसी मंडल का मंडल आयुक्त बनाया गया है।

आमूषण व्यवसायी का हत्यारोपी गिरफ्तार

कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के पटहरवा थाना क्षेत्र के नाथयणपुर कोठी में गत 06 जून को सर्गीफा व्यवसायी जयराम वर्मा को गला काटकर हत्या करने के आरोपी को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी बिहार के गोपालगंज जिले के भानपुर लोहरबलिया चौराहे के पास से पकड़ा गया। गिरफ्तार हत्यारोपी ने बताया कि वह लूट और चोरी के आभूषण अवसर व्यापारियों को बेचता था। छह जून को आभूषण बेचने के दौरान कम रकम देने पर हुए झगड़े के बाद उसने व्यवसायी वर्मा की हत्या कर दी थी। एएसपी रिंदेश कुमार सिंह ने बताया कि छह जून को जयराम हत्याकांड में पुलिस हत्या का मुकदमा दर्ज कर हत्यारे की तलाश में जुटी थी। पुलिस की जांच पड़ताल में राजन पांडेय निवासी तैतरिया थाना विजयपुर जनपद गोपालगंज (बिहार) का नाम आया। शुक्रवार को गोपालगंज जिले के ही भानपुर लोहरबलिया चौराहे से 200 मीटर दक्षिण से उसे गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि देर शाम उसकी गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए बिहार पुलिस ने बताया कि आरोपी के कब्जे से एक बाइक, 27 अंठूटी, 21 बिछिया, 42 घुंघरू, एक मंगलमूसूर, चाकू सहित अन्य सामग्री बरामद हुई है। बरामदगी और गिरफ्तारी के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इस हत्याकांड का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को एस्पी भवत जाससवाल ने 25 हजार रुपये का पुरस्कार दिया है।

माफिया अतीक के बेटे अली ने कोर्ट में किया सरेंडर, 50 हजार का था इनाम



एजेंसी
प्रयागराज। गुजरात जेल में बंद बाहुबली और पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद अली ने शनिवार को पुलिस और एसटीएफ को चकमा देकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अली के खिलाफ करेली पुलिस ने 50 हजार का इनाम घोषित किया था। पिछले साल दिसंबर में अतीक अहमद के रिश्तेदार जोशान ने अली समेत अन्य के खिलाफ करेली थाना में रंगदारी मांगने और जानलेवा हमला करने समेत कई संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मुकदमे में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अली वारदात के बाद से ही फरार चल रहा था। पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश में थी। शनिवार को नाटकीय

पुलिस अधीक्षक सहित 12 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज

एजेंसी
चित्रकूट। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में लगभग सवा साल पहले हुई मुठभेड़ के मामले में न्यायालय के आदेश पर बहिलपुरवा थाने में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल सहित एसटीएफ और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज हो गया है। इसमें कुछ अज्ञात के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज की गई है। अधिवक्ता राजेंद्र यादव ने बताया कि बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के परवलिगा गांव की निवासी नथुनिया पत्नी स्वर्गीय भालचंद्र ने न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया था। नथुनिया के अनुसार तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल एसटीएफ के उपनिरीक्षक अमित कुमार, सतोष कुमार, हेड कांस्टेबल उमाशंकर, कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह, शिवालंशु शुक्ला, चित्रकूट जिले के स्कार्ट प्रभारी ब्रवण

यूपी के गांव में बिजली की समस्या होगी दूर

जल्द बनेंगे नौ नए बिजलीघर, जानें किस जिले को होगा फायदा

एजेंसी
शाहजहांपुर। ग्रामीण इलाकों में बिजली को लेकर आ रही समस्या जल्द ही दूर होने वाली है। रीवेम्ड योजना से शाहजहांपुर जिले में 9 नए बिजलीघर बनेंगे। अधिक समस्या में रहने वाले जलालाबाद को 4 नए बिजली घर बनेंगे। इसके लिए विधायक हरिप्रकाश वर्मा ने काफी दौड़धूप की, उसका परिणाम है कि जलालाबाद को चार बिजली घर मिलेंगे। पूरे जिले में 9 नए बिजलीघर बनने से करीब 1200 गांव के लोगों

बिजलीघर

को ओवरलोडिंग, ट्रिपिंग आदि समस्या से छुटकारा मिलेगा। जिले में रीवेम्ड योजना से 9 नए बिजलीघर बनाने के लिए शासन से हरी झंडी मिल गयी है। योजना में शामिल नए बिजलीघर पुवायों में 2, तिलहर में 1 जलालाबाद में 4,

देवरिया : लापरवाही बरतने पर एसडीएम, तहसीलदार और कानूनगो को मिला नोटिस

देवरिया। उत्तर प्रदेश के देवरिया में जिलाधिकारी (डीएम) जितेंद्र प्रताप सिंह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में देरी करने पर उपजिलाधिकारी (एसडीएम) रघुपुर संजीव कुमार उपाध्याय, तहसीलदार अभयराज एवं कानूनगो संतोष वर्मा को 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया है। जिला प्रशासन की ओर से शुक्रवार को प्राप्त जानकारी के मुताबिक उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाया कि

के दौरान गत वर्ष 2 जुलाई के आदेश में सेवानिवृत्त लेखपाल भूलन कुशवाहा के पेंशन भुगतान के संबन्ध में आदेश पारित किया था।

देवरिया के मुख्य राजस्व अधिकारी द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने के लिए एसडीएम रघुपुर को निर्देशित भी किया गया था। इसके बावजूद 7 माह बाद भी एसडीएम रघुपुर ने इस प्रकरण को लॉबित रखा। डीएम सिंह ने बताया कि

के सभी जिलों में हर स्थान पर महज एक फोन कॉल पर एंबुलेंस आएगी। मरीजों का हास्पिटल में तुरंत इलाज शुरू होगा।

इलाज में देरी की समस्या से निपटने के लिये राज्य सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और एम्स की ओर से स्वास्थ्यकर्मियों को दिशा में खास तौर पर प्रशिक्षित किया जायेगा जिससे अस्पताल में मरीज के पहुंचने के बाद भी इलाज शुरू होने में देरी होने का विश्लेषण (गैप एनालिसिस) कर इस समस्या को दूर किया जा सके।

स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मरीजों को समय पर

अतीक के बड़े बेटे पर है दो लाख का इनाम

बाहुबली अतीक अहमद के सबसे बड़े बेटे मोहम्मद उमर की अब हिस्ट्रीशीट खोली जानी है। जिला पुलिस ने इसकी कार्यवाही शुरू कर दी है। हिस्ट्रीशीट खोलने के लिए दस्तावेज इकट्ठा किए जा रहे हैं। इससे पहले सीबीआई उमर पर दो लाख रुपये का इनाम घोषित कर चुकी है। तीन साल से जांच एजेंसियों को उसकी तलाश है। 2018 में उमर के खिलाफ लखनऊ के प्रॉपर्टी डीलर मोहित जायसवाल को अगवा कर देवरिया जेल में ले जाकर पिटाई करने के मामले में लखनऊ के कृष्णा नगर थाने में एफआईआर हुई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जहां कोर्ट के आदेश पर छह महीने बाद कृष्णा नगर थाने में दर्ज एफआईआर को ही आधार बनाकर सीबीआई लखनऊ की स्पेशल क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज कर जांच शुरू की।

खिलाफ उसके रिश्तेदार ने ही दिसंबर 2021 को करेली थाने में पांच करोड़ की रंगदारी मांगने और मारपीट करने का मुकदमा दर्ज कराया था। अली अहमद पर आरोप है कि वह अपने साथियों संग गया था। उसने गुजरात के अहमदाबाद के

मथुरा : बाके बिहारी के दर्शन कर शिल्पा शेट्टी हुई अभिभूत

मथुरा। मशहूर सिने तारिका शिल्पा शेट्टी ने उत्तर प्रदेश में कृष्ण नगरी मथुरा स्थित वृंदावन में बांके बिहारी मन्दिर में मुख्य विगृह के दर्शन किये। उन्होंने कहा कि इस स्थान पर आकर वह धन्य महसूस कर रही हैं। राजस्थान के भरतपुर प्रवास पर आर्यों शिल्पा शेट्टी ने शुक्रवार को मथुरा की भी यात्रा की। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि वह भाग्यशाली हैं कि ठाकुर जी ने उन्हें बुलाया है। भरतपुर से लौटते समय उन्होंने बांके बिहारी मन्दिर में पूजन अर्चन किया।पूजा की रस्म बांके बिहारी मन्दिर के सेवयात आचार्य प्रभु गोस्वामी ने निभाई। उन्होंने सिने तारिका शिल्पा के माथे पर ठाकुर जी के आशीर्वाद स्वरूप चन्दन लगाया और अति पवित्र कमल के फूल की आशिर्वादी माला भी उन्हें भेंट की। इस अवसर पर सात साल के प्रियांशु गोस्वामी ने मन्दिर के जगमोहन से सिने तारिका को जब राखी भेंट की तो वह भाव विभोर हो गईं।

मथुरा में बांके बिहारी मन्दिर

नई दिल्ली

रविवार 31 जूलाई 2022

Www.gauravshalibharat.com

विवाद के चलते बुकर पुरस्कार विजेता गीतांजलि श्री का आगरा कार्यक्रम रद्द

किताब में शिव-पार्वती के अपमान का आरोप

आगरा। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता गीतांजलि श्री को सम्मानित करने के लिए शनिवार को आगरा में आयोजित होने वाला कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि के खिलाफ दायर एक शिकायत के कारण कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के हाथरस में रहने वाले संदीप कुमार पाठक ने गीतांजलि श्री के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि पुस्तक में हिंदू देवताओं शिव और पार्वती के बारे में आपत्तिजनक विवरणियां हैं। आयोजकों ने शनिवार को एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए एक टवीर में कहा कि संदीप कुमार पाठक ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य के पुलिस प्रमुख से मामले पर प्राथमिकी दर्ज करने का आग्रह किया है। इस मामले पर पुलिस का कहना है कि वो किताब पढ़ने के बाद प्राथमिकी दर्ज करने के बारे में निर्णय लेगी। आयोजकों के मुताबिक गीतांजलि श्री ने उनसे कहा है कि वो इस बात से आहत हैं और फिलहाल किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहतीं। जानकारी के मुताबिक बुधवार को स्थानीय मीडिया द्वारा हाथरस में गीतांजलि श्री के खिलाफ शिकायत के बारे में रिपोर्ट किए जाने के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आयोजित एक सम्मान समारोह को बाधित करने का भी प्रयास किया था। गीतांजलि श्री ने आयोजकों से कहा है कि मेरे उपन्यास को जबरदस्ती राजनीतिक विवाद में घसीटा जा रहा है। उपन्यास में किए गए संदर्भ भारतीय पौराणिक कथाओं का अभिन्न अंग हैं। जिन लोगों को इन विवरणों पर आपत्ति है, उन्हें हिंदू पौराणिक ग्रंथों को अदालत में चुनौती देनी चाहिए।

सीएम योगी का बड़ा फैसला

गलत तरीके से किए गए 48 डॉक्टरों के तबादले रद्द



लखनऊ। यूपी के स्वास्थ्य विभाग में गलत तरीके से किए गए तबादलों को सीएम योगी ने गंभीरता से लिया है। डॉक्टरों के तबादले रोकने को लेकर सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है। शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ गलत तरीक से किए गए 48 डॉक्टरों के तबादले को रद्द कर दिया। बता दें कि लेवल वन के 313 डॉक्टरों के तबादले गलत तरीके से कर दिए गए थे। उनका नाम गलत सूची में डाल दिया गया था। जिसके बाद 48 डॉक्टरों का तबादला रद्द कर दिया गया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अभी ओर डॉक्टरों के तबादलों को रद्द किया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग में हुए तबादलों की लिस्ट पर सीएम योगी का मंथन जारी है।

यूपी के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों के हुए तबादलों में गड़बड़ी पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने

भाजपा का तीन दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग शिविर शुरू

चित्रकूट। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुये पौराणिक नगरी चित्रकूट में शुक्रवार को शुरू हुये उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तीन दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग में पार्टी की कर्मपद्धति, वैचारिक अभिष्ठान, भाजपा का इतिहास और विकास और सरकार की उपलब्धियां आदि विषयों पर चिंतन-मंथन किया गया।

नानाजी देशमुख सभागार में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ,राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री मुरली धर राव, राष्ट्रीय संगठक वी सतीश जी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ,राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री मुरली धर राव, राष्ट्रीय संगठक वी सतीश जी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय व डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के चित्र पर पुष्पार्चन व दीप प्रज्वलन कर वर्ग का शुभारंभ किया।

इस मौके पर स्वतंत्र देव सिंह ने स्वागत भाषण में कहा कि प्रशिक्षण वह प्रयत्न होता है जिसके द्वारा कार्यकर्ता अपनी क्षमता तथा अपनी प्रतिभा को बढ़ता है। इसके साथ ही वह एक विशेष दिशा में अपनी प्रवृत्ति तथा उच्च भावना को भी उद्वरण करता है। उन्होंने कहा प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य सांगठनिक कार्यों मे कार्यकुशलता लाना है। प्रशिक्षण के द्वारा कार्यकर्ता में स्वयं को अपनी

संस्था का अंग बनने की क्षमता आती है।

प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग के प्रथम सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री मुरलीधर राव ने एकात्मतामनवाद पर चर्चा करते हुए कहा कि हमारी विचारधारा, सिद्धांत, मौलिक दृष्टि, संगठन निर्माण, सामूहिकता के दृष्टि अन्य पार्टी के वैचारिक मूल्यों से अलग है। हमने पूंजीवाद, साम्यवाद की भावना को नकारते हुए एकात्म मानववाद एवं अंत्योदय की भावना को आत्मसात किया है।हमारा संबंध कभी धर्म और विज्ञान के बीच नहीं हुआ, अपितु हमारे धर्म में व्यापक दर्शन है, सृष्टि को देखने का बोध अलग है। संगठन से समाज और व्यक्ति में क़भी भिन्नता नहीं की। हमारी दार्शनिक विचारधारा है कि जो पिण्ड में है वही ब्रम्हांड में है।

इसके पूर्व पार्टी के राष्ट्रीय संगठक वी सतीश ने वर्ग की प्रस्तावना रखते हुए कहा कि अनुशासित, देखव्यापी, संस्कारित, सर्मापित कार्यकर्ताओं के निर्माण के लिये प्रशिक्षण अत्यंत अनिवार्य है।

कोई विचार अच्छा तभी हो सकता है जब उस पर चलने वाले संस्कारिक लोग हों।शरीर, मन, बुद्धि, संस्कार के माध्यम से ही हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं।

चिन्हित किया गया है, उनमें दिसंबर 2023 तक एसजीपीआई गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, कन्नौज, बदायूं, अयोध्या, जिम्म नोएडा, बस्ती, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद और बहराइच शामिल हैं। जबकि दिसंबर 2026 तक यूपीएमएस सईरू, आरएमएलआईएमएस आगरा, झांसी, प्रयागराज, चाइल्ड पीजीआई, बांदा, सहावरनगर, जालौन, आजमगढ़, अंबेडकरनगर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, हरदोई, एटा, फतेहपुर, देवरिया, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर और 14 अन्य मेंडिकल कॉलेजों को अपग्रेड किया जाएगा।

जिन चिकित्सा संस्थानों और मेंडिकल कॉलेजों का होगा अपग्रेडेशन के लिये



अस्पताल भेजने और समय पर इलाज शुरू करने के लिये एंबुलेंस और टैक्सिकल स्टॉफ में इजाफा कर इन्हें प्रशिक्षित किया जायेगा। ‘इंटीग्रेटेड ट्रेमा और इमरजेंसी सेंटर’ की स्थापना के बारे में उन्होंने बताया कि इसकी क्षमता रोजाना 40 हजार

शार्ट न्यूज

पांच करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल

नयी दिल्ली। आकलन वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि कल आने के बीच आज 44.52 लाख से अधिक रिटर्न दाखिल किये गये। अब तक कुल मिलाकर पांच करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किये जा चुके हैं। आयकर विभाग ने आज देर शाम यहां बताया कि रात आठ बजे तक 4452236 रिटर्न दाखिल किये गये जिसमें से अंतिम एक घंटे में 434811 रिटर्न भरे गये हैं। अब तक कुल मिलाकर पांच करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किये जा चुके हैं। रिटर्न भरने की अंतिम तिथि कल है और आयकर विभाग लोगों से पहले से ही अंतिम समय तक का इंतजार नहीं करने की अपील कई बार कर चुका है।

गोदरेज एगोवेट का पहली तिमाही में कर पूर्व लाभ घटा

मुंबई। पशु चारा और कृषि व्यवसाय क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी गोदरेज एगोवेट लिमिटेड का वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में कर पूर्व लाभ 102.8 करोड़ रुपये रहा जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 126.2 करोड़ रुपये था। गोदरेज एगोवेट ने शनिवार को एक बयान में कहा कि आलोच्य तिमाही में कंपनी को समेकित कुल आय 25.7 प्रतिशत बढ़कर 2,517.5 करोड़ रुपये रही। यह वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में 2,003.2 करोड़ रुपये थी। कंपनी का परिचालन लाभ (एबिक्टडा) इस तिमाही में 169.3 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। एक वर्ष पहले यह 180.0 करोड़ रुपये था। गोदरेज एगोवेट के प्रबंधन निदेशक बी एस यादव ने कहा, कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में मात्रा और टॉपलाइन में मजबूत वृद्धि के साथ शुरुआत की। फलतः सुरक्षा को छोड़कर हमारे सभी व्यवसायों ने भारी मात्रा में वृद्धि दर्ज की है।

30 मिनट में 18 हजार करोड़ के एक लाख

स्कोर्पियो एन की हुयी बुकिंग

नयी दिल्ली। बहुउपयोगी वाहन और एसयूवी बनाने वाली कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के नये स्कोर्पियो एन ने बुकिंग के मामले में नया रिकार्ड कायम किया है। आज सुबह 11 बजे बुकिंग खुलते ही एक मिनट में 25 हजार स्कोर्पियो एन की बुकिंग हो गयी और मात्र 30 मिनट में 18 हजार करोड़ रुपये मूल्य के एक लाख वाहन बुक हो गये। कंपनी ने यहां जारी बयान में यह घोषणा करते हुये कहा कि 30 मिनट में बुक हुयी एक लाख स्कोर्पियो का एक्स शील्डूम कीमत 18 हजार करोड़ रुपये है। उसने कहा कि नये स्कोर्पियो की डिलीवरी 26 सितंबर से शुरू की जायेगी और दिसंबर 2022 तक 20 हजार वाहन डिलीवर करने की योजना है। कंपनी ग्राहकों को अगस्त के अंत में डिलीवरी की तिथि बतायेगी। उसने कहा कि एक मिनट के अंदर बुक किये गये 25 हजार स्कोर्पियो एन के ग्राहकों का आमंत्रण मूल्य पर वाहन दिया जायेगा। उसने कहा कि नये स्कोर्पियो एन की बुकिंग अभी भी ऑनलाइन और डीलर के यहां जारी है।

दिल्ली से देवघर के लिए सीधी उड़ान शुरू

नयी दिल्ली। इंडिगो की दिल्ली से झारखंड के देवघर के लिए सीधी दैनिक उड़ान की शनिवार को शुरुआत हो गयी। इसे नागरिक विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वचुअल कार्यक्रम में हरी झंडी दिखायी। एयरलाइन ने इस मार्ग के लिए अपने 180 सीटों वाले ए320 नीओ विमान को तैनात किया है जिसका इस्तेमाल अधिकतर घरेलू मार्गों पर किया जाता है। इस नयी उड़ान सेवा के लिए देवघर से रोज प्रस्थान करने वाली उड़ानों की संख्या 11 हो गयी है। इंडिगो की यह उड़ान दिल्ली से दोपहर बाद एक बजे रवाना होगी और 02:45 बजे देवघर पहुंचेगी जबकि अपराह्न 03:15 बजे यह उड़ान वहां से प्रस्थान कर शाम 05:15 मिनट पर दिल्ली पहुंचेगी। इस अवसर पर सिंधिया ने कहा, देवघर में बाबा बेदानाथ धाम एक अंतरराष्ट्रीय धार्मिक विरासत है और मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरे मंत्रालय ने लाखों तीर्थयात्रियों को देवघर जाने में मदद की है। देश की कठोर आर्थिक स्थिति के साथ-साथ हमें देश की सॉफ्ट पावर को भी जोड़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा, हमने देवघर हवाई अड्डे का निर्माण किया जो 655 एकड़ में फैला है और 400 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है जिससे यह रांची के बाद झारखंड में दूसरा हवाई अड्डा बन गया है। हम झारखंड में तीन और हवाई अड्डों - बोकारो, जमशेदपुर और दुमका पर भी काम कर रहे हैं। इससे झारखंड में कुल हवाई अड्डों की संख्या पांच हो जायेगी।

आरआईएनएल के विपणन विभाग के अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रभाग को निर्यात उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार

नयी दिल्ली। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) के अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रभाग (आईटीडी) को भारतीय दक्षिणी क्षेत्र अभियंत्रण निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी) की ओर से वर्ष 2018-19 के लिए स्टर परफॉर्मंस अवॉर्ड दिया गया। आरआईएनएल को यह पुरस्कार लोहे और स्टील के रोल्ड, ड्रान और फोल्डेड उत्पादों के बड़े उद्यम की श्रेणी के तहत निर्यात उत्कृष्टता के लिए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पुरस्कार प्रदान किया। आरआईएनएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अतुल भट्ट ने निर्यात उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार मिलने पर कंपनी के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभाग (निर्यात प्रभाग) की सराहना की। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार किसी ऐसे संगठन को दिया जाता है जिसने अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो और तीन वित्तीय वर्षों में से दो में निर्यात प्रदर्शन की एक निश्चित न्यूनतम राशि सफलतापूर्वक हासिल की है। आरआईएनएल के उत्पाद अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता और विंतरण कार्यक्रम के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में अत्यधिक प्रसिद्ध हैं।

दुबई प्रोपर्टी बाजार में उछाल

दुबई। दुबई में निवेशकों को बढ़ती रूचि के बाद के इस वर्ष की पहली छमाही में संपत्ति बाजार में उछाल आया है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बाद अमीरात में धन की आवक बढ़ी है और सम्पत्ति खरीदारों की सूची में रूस पहले पांच स्थानों में शामिल है। डॉन अखबार ने प्रोपर्टी सलाहकार बेटरहोम्स की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुये बताया कि पहली छमाही में आवासीय अचल संपत्ति लेनदेन की मात्रा 60 प्रतिशत बढ़ी, जिसमें बची गई संपत्तियों के मूल्य में 85 प्रतिशत की वृद्धि हुई। शीघ्र खरीदारों में भारत, ब्रिटेन, इटली, रूस और फ्रांस शामिल हैं, इस क्रम में कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात, पाकिस्तान और मिस्र आठवें स्थान पर इसके बाद लेबनान और चीन है। बेटरहोम्स ने एक सवाल के जवाब में कहा कि इस साल की पहली छमाही में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में रूसी खरीदारों की संख्या में 164 प्रतिशत वृद्धि हुई है। फ्रांस और ब्रिटेन की संख्या क्रमशः 42 प्रतिशत और 18 प्रतिशत बढ़ी, जबकि भारतीयों खरीददारी में आठ प्रतिशत और इटली से 17 प्रतिशत की गिरावट आई है। निवेशकों के आने से बाजार में 60 फीसदी की तेजी आयी है इनमें भारत, ब्रिटेन, इटली, रूस, और फ्रांस शीघ्र पांच खरीदार हैं। बेटरहोम्स ने कहा कि यूरोप में भू-राजनीतिक अस्थिरता और ब्याज दरों में बढ़ोतरी कारण मांग को बढ़ावा मिला है। इस साल की शुरुआत में यह बताया गया था कि यूक्रेन के आक्रमण पर रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों के मद्देनजर रूस के लोग वित्तीय आश्रय की तलाश कर रहे हैं और दुबई की संपत्तियों में निवेश कर रहे हैं।

ईंधन के मूल्य में बदलाव नही

नयी दिल्ली। पेट्रोल-डीजल को कीमतों में शनिवार को कोई बदलाव नहीं हुआ। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की एक अधिसूचना के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपये प्रति लीटर और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। मुंबई में एक लीटर पेट्रोल 106.31 रुपये में मिल रहा है जबकि डीजल 94.27 रुपये प्रति लीटर पर मिल रहा है। चेन्नई में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 102.63 रुपये जबकि डीजल की 94.24 रुपये है। इसी तरह कोलकाता में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 106.03 रुपये है जबकि डीजल की कीमत 92.76 रुपये है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें वैट और माल ढुलाई शुल्क के आधार पर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हैं किन्तु सरकार भी मोटर ईंधन पर उत्पाद शुल्क लेती है।

शक्कर में पूछपरख, खाद्य तेलो में तेजी, दलहनों में उछाल, दाल महंगी, चावल सामान्य

इंदौर। सियागंज किराना बाजार में शक्कर में उठाव रहा। खाद्य तेल मजबूत रहे। सोयाबीन रिफाईंड- पाम तेल बढ़कर बिका। तिलहन में उठाव रहा। दालों में मजबूती दर्ज की गई। चावल में कामकाज सुधार लिए बताया गया।

किराना बाजार

शक्कर में मांग रही। आज शक्कर में कामकाज 3540 से 3580 रुपये के स्तर पर चला। शक्कर में 08 गाड़ी आवक हुई। खोपरा गोला, खोपरा बूरा, हल्दी तथा साबुदाना में उठाव बताया गया। इससे तेजी दर्ज की गई।

तेल -तिलहन

खाद्य तेल तेजी लिए रहे। आज सोयाबीन रिफाईंड तथा पाम तेल में मजबूती दर्ज की गई। तिलहन में प्लान्टो की लिवाली से तेजी हुई।

किराना

शक्कर 3550 से 3600 रुपये प्रति

क्रिंटल।

खोपरा गोला 180 से 205 रुपये प्रति किलोग्राम। खोपरा बूरा 2000 से 3500 रुपये प्रति 15 किलोग्राम। हल्दी खड़ी 100 से 162 रुपये प्रति किलोग्राम। साबूदाना 5500 से 6200, पैकिंग में 6200 से 6600 रुपये प्रति क्रिंटल।

तिलहन

सरसों निमाड़ी 6000 से 6200, रायडा 5900 से 6100 रुपये प्रति क्रिंटल।

तेल

मूंगफली तेल इंदौर 1630 से 1650,

सोयाबीन रिफाईंड इंदौर 1280 से 1285, सोयाबीन साल्वेंट 1245 से 1250, पाम तेल 1330 से 1335 रुपये प्रति 10 किलो।

दलहन

चना (कांटा) 4975 से 5000, मसूर 6800 से 6825, तुअर निमाड़ी 6500 से 7200, तुअर सफेद (महाराष्ट्र) 7500 से 7700, तुअर (कर्नाटक) 7800 से 7900, मूंग 6400 से 6700, मूंग हल्की 5500 से 6000, उड़द 7700 से 8000, उड़द मॉडियम 6000 से 7000, उड़द नया 7000 से 7800, हल्का 2500 से 4500 रुपये प्रति

क्रिंटल।

चना दाल 6050 से 6550, तुअर दाल सवा नंबर 9400 से 9500, तुअर दाल फूल 9600 से 9800, तुअर दाल नई 10100 से 10800, आयातित तुअर दाल 9200 से 9400, मसूर दाल 7900 से 8200, मूंग दाल 8500 से 8800, मूंग मोगर 8900 से 9200, उड़द दाल 9200 से 9500, उड़द मोगर 9800 से 10100 रुपये प्रति क्रिंटल।

चावल-पोहा

बासमती 10000 से 11000, तिबार

8000 से 8500, दुबार 7000 से 7500, मिनी दुबार 6500 से 7000, मोगरा 3500 से 4500, बासमती सैला 6500 से 9000, कालीमूँ 7500 से 8000, राजभोग 6500 से 7000, दूबराज 3500 से 4500, परमल 2500 से 2650, हंसा सैला 2450 से 2650, हंसा सफेद 2350 से 2450, पोहा 3700 से 4100 रुपये प्रति क्रिंटल।

रवा-मैदा

रवा 1520 से 1530, मैदा 1490 से 1500, आटा 1370 से 1380, चना बेसन 3300 से 3325 रुपये प्रति 50 किलोग्राम।

औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जून 2022 में 0.2 अंक बढ़ा

नयी दिल्ली। अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिक) जून 2022 में 0.2 अंक बढ़कर 129.2 अंक के स्तर पर पहुंच गया। सूचकांक में पिछले माह की तुलना में 0.16 प्रतिशत की वृद्धि रही जबकि एक वर्ष पूर्व मई-जून के बीच 0.91 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी थी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा कि सूचकांक में दर्ज वृद्धि में अधिकतम योगदान खाद्य एवं पेय समूह का रहा जिसने कुल बदलाव को 0.20 प्रतिशत से प्रभावित किया। मर्दों में आतू, प्याज, टमाटर, बंदगोबी, सेब, केला, धनिया पाउडर, सुखी मिर्च, ताजा मछली, पोस्ट्री/चिकन, वडा, इडली डोसा, तैयार भोजन, कुकिंग गैस, केरोसीन तेल, बिजली प्रभार इत्यादि सूचकांक को बढ़ाने में सहायक रहे। इसके विपरित मुख्यतः पेट्रोल, चावल, आम, हरी मिर्च, नौबू, भिंडी, परवल, अनानाश, सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल, आदि ने सूचकांक में दर्ज वृद्धि को निरन्त्रित करने का प्रयास किया। केंद्र-स्तर पर पुद्दुचेरी के सूचकांक में अधिकतम 2.6 अंक की वृद्धि रही जिसके पश्चात अमृतसर और त्रिपुरा में क्रमशः 2.2 एवं 2.0 अंक की वृद्धि दर्ज की गई। अन्य 15 केंद्रों में 1 से 1.9 अंक, 33 केंद्रों में 0.1 से 0.9 अंक के बीच वृद्धि रही। इसके विपरीत संभारूक में अधिकतम 2.4 अंक की कमी रही 7 अन्य 5 केंद्रों में 1 से 1.9, 25 केंद्रों में 0.1 से 0.9 तक की कमी दर्ज की गई 7 शेष 6 केंद्रों के सूचकांक स्थिर रहे।

माईगव मंच पर को आठ साल में मिले 1.4 अरब त्यू

एजेंसी

नयी दिल्ली। मोदी सरकार द्वारा शासन में जन-भागीदारी के लिए आठ साल पहले शुरू किए गए आनलाइन मंच 'माईगव' के विभिन्न खंडों, प्रुणों और माइक्रोसाइट्स पर कुल 1.4 अरब देखे गए हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव आज यहां 'माईगव' के 8 वर्ष 'के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि माईगव ने नागरिकों को सरकार से जुड़ने में मदद की है।

उन्होंने इंगव टीम को आठ साल पूरे करने की बधाई देते हुए कहा, प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ-साथ माईगव जैसे प्लेटफार्मों ने बड़े पैमाने

पर नागरिकों तक पहुंचने के लिए सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं का पूरा लाभ उठाया है। सरकार ने इस मंच को उपयोगिता के बारे में बताया है कि कोविड-19 के दौरान माईगव हेल्पडेस्क और चैटबॉट के माध्यम से नौ करोड़ उपयोगकर्ताओं को इस महामारी से संबंधित 42 करोड़ से अधिक संदेश भेजे गए। सरकार के अनुसार इस मंच पर जनता की भागीदारी का एक प्रमाण यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के लिए चार करोड़ से अधिक आईवीआरएस संदेश और 3.8 लाख से अधिक विचार एवं समाज प्राप्त हुए हैं।

इस कार्यक्रम में नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरम अवरु, जी-20 के सम्मेलन के लिए भारत के शेरपा अमिताभ कांत और क्षमता निर्माण आयोग के सचिव हेमंता जानी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति शामिल थे। श्री वैष्णव ने %युवा 2022 के लिए जिम्मेदार एआई% का भी शुभारंभ किया। युवापीढ़ी में एआई-टेक की गहरी समझ को बढ़ावा देने और युवाओं को मानव-केंद्रित

डिजाइनर बनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा इंटरनेट इंडिया और शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से बनाया गया है। यह कार्यक्रम पूरे भारत में कक्षा 8-12 में पहुंचने वाले सभी स्कूलों छात्रों के लिए खुला होगा।

माईगव के मुख्य कार्यपालक अधिषेक सिंह ने कहा, मुझे सहभागिता के साथ शासन के माध्यम से नागरिकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरे तन-मन से काम के लिए माईगव की टीम पर गर्व था। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में

माईगव के साथियों, हितधारकों और भागीदारों से बड़ा सहयोग मिला है।

आईडीएफसी फर्सट बैंक का पहली तिमाही में शुद्ध लाभ बढ़कर 474 करोड़ रुपये

नयी दिल्ली। निजी क्षेत्र के आईडीएफसी फर्सट बैंक का वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में शुद्ध लाभ बढ़कर 474 करोड़ रुपये रहा। बैंक को वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में 630 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।

आईडीएफसी ने शनिवार को एक बयान में कहा कि इस तिमाही में उसकी शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) सालाना आधार पर 26 प्रतिशत बढ़कर 2,751 करोड़ रुपये रही। इसी तरह शुद्ध ब्याज मार्जिन सुधारकर 5.89 प्रतिशत रहा जो 30 जून 2021 को समाप्त हुयी तिमाही में 5.50 प्रतिशत था।

बैंक की आलोच्य तिमाही में फीस और अन्य आय 100 प्रतिशत बढ़कर 899 करोड़ रही, जबकि बैंक में जमा



राशि 21 प्रतिशत के इजाफे के साथ 1,02,868 करोड़ रुपये पर पहुंच गयी। बैंक का चालू खाता एवं बचत खाता (सीएएसए) अनुपात 30 जून 2022 को 50.04 प्रतिशत रहा।

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बैंक के अवरूद्ध ऋण (एनपीए) में सुधार दर्ज किया गया। सकल एनपीए 1.25 प्रतिशत घटकर 3.36 प्रतिशत रहा जबकि शुद्ध

एनपीए 1.02 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1.30 प्रतिशत दर्ज किया गया।

आईडीएफसी फर्सट बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी वी वैद्यनाथन ने कहा, हमने बैंक के लिए एक मजबूत नींव बनायी है। इसके आधार पर हम यहां से आराम से ऋण पुस्तिका, जमा और मुनाफे को स्थिर तरीके से बढ़ा सकते हैं।

पांचवें दिन 5 जी स्पेक्ट्रम नीलामी में लगी 112 करोड़ की बोली

नयी दिल्ली। देश में यथाशीघ्र 5 जी सेवा शुरू करने के लिए जारी स्पेक्ट्रम नीलामी के पांचवें दिन कुल मिलाकर कंपनियों ने 1.50 लाख करोड़ रुपये की बोली लगायी है।

सूत्रों के अनुसार आज संपन्न पांचवें दिन की बोली में 112 करोड़ रुपये की बोली गयी है। इसमें उत्तर प्रदेश के लिए कंपनियों ने बड़ी बोली लगायी। अब तक कुल मिलाकर 149967 करोड़ रुपये की बोली लग चुकी है। अब कुल 30 चक्र में बोलियां लगायी गयी हैं। आज सात चक्र में बोलियां लगायी



गयी। सोमवार को नीलामी जारी रहेगी। इस नीलामी में मुख्य रूप से रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया और अदाणी समूह शामिल हैं। अदाणी समूह प्राइवेट

नेटवर्क के लिए 5जी स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए बोली लगा रहा है। कंपनियां 5जी नेटवर्क मिलने के बाद इस साल के अंत तक या आगले वर्ष के प्रारंभ में देश में 5 जी सेवाएं शुरू कर सकती हैं। 5जी नेटवर्क 4जी नेटवर्क की तुलना में कम से 10 गुना तेज होगा।

5जी सेवाओं के लिए सरकार ने 600 मेगाहर्ट्ज, 700, 800, 900, 1800, 2100, 2300, 2500 मेगाहर्ट्ज जैसे निम्न बैंड की रेडियोतरंगों और सी बैंड में 3.3-3.6 गीगाहर्ट्ज तथा उच्च बैंड में 26 गीगाहर्ट्ज का कुल

72,097.85 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए पेश किया है।

सरकार द्वारा इस नीलामी के लिए तय न्यूनतम दर बोली स्पेक्ट्रम से कुल 4.3 लाख करोड़ रुपये प्राप्त हो सकते हैं लेकिन उद्योग जगत के जानकारों का अनुमान लगाया था कि इस नीलामी में 1-1.5 लाख करोड़ रुपये के स्पेक्ट्रम की बिक्री हो सकती है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 5जी स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए नीलामी कराने के प्रस्ताव को पिछले महीने मंजूरी दी थी।

डीसीबी बैंक का पहली तिमाही में शुद्ध लाभ तीन गुना बढ़ा



नयी दिल्ली। निजी क्षेत्र के डीसीबी बैंक का अवरूद्ध ऋणों में किए गए प्रावधानों के बाद वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में एकल आधार पर शुद्ध लाभ तकरीबन तीन गुना बढ़कर 97 करोड़ रुपये रहा।

वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 34 करोड़ रुपये था। डीसीबी बैंक ने शेयर बाजार को बताया कि आलोच्य तिमाही में उसकी कुल आय 466 करोड़ रुपये रही जो इससे एक वर्ष पूर्व समान तिमाही में 430 करोड़ रुपये थी। इसी तरह बैंक की गैर ब्याज आय 309 करोड़ रुपये से बढ़कर 374 करोड़ रुपये दर्ज की गयी।

हालांकि इस तिमाही में बैंक को घाटे के साथ 166 रुपये का परिचालन लाभ प्राप्त हुआ जो 30 जून 2021 को समाप्त हुयी तिमाही में 202 करोड़ रुपये था। बैंक का अप्रैल-जून 2022 तिमाही में सकल एनपीए सुधारकर 4.21 प्रतिशत हुआ जो इससे एक वर्ष पूर्व समान तिमाही में 4.91 प्रतिशत रहा। इसी तरह शुद्ध एनपीए भी 2.84 प्रतिशत से सुधारकर 1.82 प्रतिशत पर आ गया। एनपीए और अन्य आकस्मिक खर्चों के लिए प्रावधान घटकर इस बार अप्रैल-जून तिमाही में 35 करोड़ रुपये रहा जबकि वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में यह 156 करोड़ रुपये था।

इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक का पहली तिमाही में शुद्ध लाभ आठ गुना बढ़ा

नयी दिल्ली। इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में शुद्ध लाभ आठ गुना से अधिक बढ़कर 97 करोड़ रुपये रहा जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 12 करोड़ रुपये था।

बैंक ने शनिवार को एक बयान में कहा कि इस तिमाही में उसे शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) के रूप में बढ़ोतरी के साथ 581 करोड़ रुपये प्राप्त हुए और



शुद्ध ब्याज मार्जिन 9.05 प्रतिशत दर्ज किया गया। वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में उसकी एनआईआई

461 करोड़ रुपये थी। इस तिमाही में बैंक द्वारा प्रदान किया जाने वाला ऋण 22 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 21,688 करोड़ रुपये रहा।

तीस जून 2022 को समाप्त हुयी तिमाही में बैंक के अवरूद्ध ऋण (एनपीए) में सुधार दर्ज किया गया। इस दौरान बैंक का सकल एनपीए 3.95 प्रतिशत रहा जो वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में 4.58 प्रतिशत था। इसी तरह बैंक का शुद्ध एनपीए

2.29 प्रतिशत से घटकर 2.07 प्रतिशत रहा।

बैंक के प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी एन वासुदेवन ने कहा, पहली तिमाही सामान्य के विपरीत एक मजबूत तिमाही रही है, जहां अधिकतर पहली तिमाही धीमी गति से चलती है।

ऋणों में 22 प्रतिशत की जोरदार वृद्धि हुई और शेष वर्ष में इसमें और सुधार होने की उम्मीद है।

भारत के श्रीलंका-पाकिस्तान जैसे नहीं होंगे हालात

नई दिल्ली। देश को श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये बात भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कही है। उन्होंने कहा कि आरबीआई ने विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने में अच्छा काम किया है। न्यूज एजेंसी ने राजन के हवाले से कहा-हमारे पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है। रिजर्व बैंक ने इसमें अच्छा काम किया है। हमारी समस्या श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी नहीं है। हमारे विदेशी कर्ज भी कम

रहा है जिससे महंगाई कम करने में मदद मिलेगी। सबसे ज्यादा महंगाई खाद्य और ईंधन में है। रघुराम राजन के मुताबिक दुनिया में खाद्य मुद्रास्फीति कम हो रही है और यह आने वाले दिनों में भारत में भी घटेगी।

आरबीआई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 22 जुलाई को समाप्त सप्ताह के लिए भारत का विदेशी मुद्रा (विदेशी मुद्रा) भंडार 571.56 बिलियन डॉलर था। इस सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में 1.152 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई।

दोनों देश में महंगाई चरम पर है। जुलाई में श्रीलंका की खुदरा महंगाई दर 61 फीसदी के करीब

रही है। अब देश में इमरजेंसी के हालात हैं। पाकिस्तान की बात करें तो राजनीतिक अशांति से आर्थिक अनिश्चता बढ़ रही है, जिससे रुपये का अवमूल्यन हो रहा है।

इस वजह से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी परत है। भारत के श्रीलंका-पाकिस्तान जैसे नहीं होंगे हालात, RBI के पूर्व गवर्नर ने बताई वजह रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि हमारी समस्या श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी नहीं है। हमारे विदेशी कर्ज भी कम हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने कहा कि इस समय पूरी दुनिया में महंगाई है।



जब बच्चे बाथ टब में नहाते हैं तो सभी को अच्छा लगता है। आप भी अपने बच्चों को बाथ टब में नहलाइये फिर देखिए कितना आनंद आता है।

बाथ टब में नहाओ

बच्चों को अगर पानी मिल जाए तो बात ही क्या है। ऐसा कोई बच्चा नहीं होता जिसे पानी में छई-छप-छई करना अच्छा नहीं लगता। समय के अभाव में हम सभी को रोज-रोज बच्चों को वॉटर पार्क ले जाने का भी समय नहीं निकलता। ऐसे में बच्चों के फेवरेट कार्टून कैरेक्टर में अगर पानी के बड़े-बड़े टब मिल जाएं तो क्या कहने। इससे खेलने का खेलना भी हो जाता है और बाहर भी नहीं निकलना पड़ता। यह बाथिंग टब आपको कहीं भी मिल जाएंगे। इन दिनों बच्चों के रंगीन बाथिंग टब को आप सड़क किनारे कहीं भी देख सकते हैं। इन रंगीन टब को देखते ही बच्चों के चेहरे खिल जाते हैं।

बाथ टब के फायदे

बाथ टब में नहाने से एक तो बच्चों को पानी में छपा-छई करने का मौका मिलता है वहीं दूसरी ओर अपने फेवरेट कार्टून कैरेक्टर के साथ खेलने का भी। एक तरह से यह मिनी स्विमिंग पुल होता है। बाथ टब में नहाकर छोटे बच्चे घर में ही वॉटरपार्क का लुत्फ उठा सकते हैं। बाजार में आपको बाथ टब 400 रुपए के शुरुआती दाम से 1500 रुपए तक की कीमत में आसानी से मिल जाएगा। घर में यह टब होने से आपके बच्चे मनभर कर पानी खेल सकते हैं। इन टब को आप अपने घर के स्पेस के अनुसार खरीद सकते हैं। साथ ही फोल्डेबल होने पर इन्हें आप उठा कर रख भी सकते हैं।

क्या आप जानते हैं?

मधुमक्खी के एक छत्ते में 20,000 से 80,000 तक मधुमक्खियां हो सकती हैं।
चंद्रबरदाई को हिन्दी का पहला कवि और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिन्दी की पहली रचना होने का गौरव प्राप्त है।
दुनिया में चीनी का वार्षिक उत्पादन 13.4 मीट्रिक टन होता है जब कि नमक का 21 करोड़ टन, यानी चीनी से डेढ़ गुना ज्यादा।
नील नदी की लंबाई (650 किलोमीटर) पृथ्वी की त्रिज्या (6400 किलोमीटर) से भी अधिक है। अभी नए अनुसंधानों से पता लगा है कि आमेजन इससे भी ज्यादा लंबी नदी है।
भारतीय मसालों के लोकप्रिय निर्माता और निर्यातक प्रतिष्ठान एमडीएच का पूरा नाम महाशियाया दी हट्टी है।
संयुक्त अरब अमीरात की जनसंख्या में प्रवासी नागरिकों का प्रतिशत 85 है, जिनमें 40 प्रतिशत लोग भारतीय हैं।
कर्नाटक के हरिहर नगर स्थित हरिहरेश्वर मंदिर की प्रतिमा आधी विष्णु और आधी शिव के रूप में हैं।



इन बातों का रखो ध्यान

तुम किसी के भी घर जाते हो तो सबसे पहले वहां के लोग तुम्हारी एक्टिविटीज से तुम्हारे बेसिक मैनेर्स को समझ जाते हैं। तभी तो कई लोगों को तुमने कहे सुना होगा कि वह बच्चा कितना समझदार है, उसके पैरेट्स ने उसे कितने अच्छे मैनेर्स सिखाए हैं। इसलिए यह जरूरी है कि तुम्हें भी सभी बेसिक मैनेर्स आएँ, जिससे सब तुम्हारी ओर तुम्हारे मम्मी-पापा की तारीफ करें। तो कहीं भी जाओ, इन बातों का ध्यान रखो-

अगर किसी के कमरे का दरवाजा बंद है तो पहले दरवाजे पर नॉक करो और जवाब आने का इंतजार करो, फिर ही कमरे में घुसो।
अगर तुम्हें किसी से कुछ लेना है तो पहले सामने वाले से पूछो। खुद से उस वस्तु को मत उठा लो। हाँ, उसे वह चीज वापस करने का वादा भी करो। इस बात का भी ध्यान रखना कि टाइम पर चीज को वापस कर दो।
किसी की परमिशन के बिना उसकी पर्सनल चीजों को मत छेड़ो या खोलकर देखो। ये बहुत ही बुरी आदत मानी जाती है।
किसी की डायरी या खत मत पढ़ो।
घर की बातों को घर में ही रखो। अगर मम्मी-पापा के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई है या घर का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है या आपका भाई पढ़ने में अच्छा नहीं है, इस तरह की बातों को दूसरे के सामने मत बोलो। सबसे जरूरी है कि अपना काम खुद ही करो। बाथरूम, टॉयलेट, किचन और टीवी रूम से निकलने से पहले उसे पहले की तरह साफ करके निकलो। पूरे घर में जूटे बर्तन मत फैलाओ। अपनी भीगी तौलिया खुद धूप में डालो। पब्लिक जेस पर किसी का मजाक मत उड़ाओ। इससे सामने वाले को बहुत दुख होता है। मजाक उड़ाने से पहले ये जरूर सोचो कि अगर कोई तुम्हारा मजाक बनाएगा तो तुम्हें कैसा लगेगा।

तेनाली राम के किस्से

जासूस सेवक

राजा कृष्णदेव की सेना ने कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। उनके वर्चस्व से घबराकर बीजापुर के सुल्तान ने अपने एक सेवक को जासूस बनाकर विजयनगर भेजा। उस जासूस की योजना थी कि राजमहल में ही राजा की हत्या कर दी जाए। इसके लिए ब्राह्मण का भेष धरा। राजमहल में

दरबार लगा था। तिलकधारी ब्राह्मण धारा-प्रवाह संस्कृत के श्लोकों से सभी को प्रभावित कर रहा था। कृष्णदेव तो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ब्राह्मण को अपने महल में ही ठहरने का स्थान दे दिया। तेनाली को यह सब उचित नहीं लगा। वे उस समय तो कुछ नहीं बोला मगर उस ब्राह्मण पर

नजर रखने लगा। कुछ ही दिनों में तेनाली को ऐसा संकेत मिल गया कि वह ब्राह्मण राजा के विषय में व्यक्तिगत जानकारियां ले रहा है। तेनाली ने राजा को सचेत किया। एक बार ब्राह्मण की अनुपस्थिति में उसके कमरे की सफाई करते समय तेनाली भी वहां मौजूद था। उसने देखा और पूरा विश्वास हो गया कि यह ब्राह्मण के भेष में कोई जासूस है। तेनाली ने राजा से कहा-महाराज! ब्राह्मण, ब्राह्मण नहीं है। राजा ने पूछा- 'वया मतलब?' 'यही कि महाराज यह कोई अन्य धर्म का मानने वाला है। यह आपसे छल कर रहा है,' तेनाली बोला। 'यदि तुम यह सिद्ध कर दो तो तुम्हें पुरस्कार मिलेगा', राजा ने कहा। उसी दिन

तेनाली और राजा ने रात के समय उस ब्राह्मण के कमरे में प्रवेश किया। एक सैनिक भी उनके साथ था जिसके हाथ में गरम पानी की बाल्टी थी। तेनाली के आदेश पर सैनिक ने गरम पानी की बाल्टी को ब्राह्मण पर उड़ेल दिया। वह लगा उछलने और 'अल्लाह-अल्लाह' चिल्लाने लगा। राजा समझ गए यह बीजापुर के सुल्तान का जासूस है जो भेष बदलकर यहां छिपा हुआ था। राजा को देखते ही जासूस ने उन पर वार किया जिसे राजा के सैनिक ने अपनी तलवार पर रोक लिया। राजा ने एक ही वार से जासूस का वध कर दिया। अगली प्रातः पूरे नगर में चर्चा थी कि तेनाली के कारण राजा की जान बच गयी।

मिक्की और डोनाल्ड सिखाएंगे अंग्रेजी

डिजनी के फेमस कार्टून कैरेक्टर मिक्की माउस और डोनाल्ड डक अब सिर्फ बच्चों का मनोरंजन ही नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें शिक्षा भी देंगे। मिक्की माउस और डोनाल्ड डक को चीन के बच्चों को अंग्रेजी सीखाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। फेवरेट कार्टून कैरेक्टर के जरिए हर साल तकरीबन डेढ़ लाख बच्चों को अंग्रेजी सिखाने का लक्ष्य रखा गया है। डिजनी पब्लिशिंग वर्ल्डवाइड के रसेल हैम्पटन ने बताया कि कार्टून कैरेक्टर से अंग्रेजी सिखाने का फंडा काफी लाभदायक साबित हो रहा है। दुनिया भर में चीन में सबसे अधिक अंग्रेजी शिक्षण के प्राइवेट सेक्टर खुल रहे हैं। इसलिए प्रारंभिक तौर पर चीन के बच्चों को कार्टून कैरेक्टर के माध्यम से अंग्रेजी सिखाने का प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। अंग्रेजी के बढ़ते चलन के कारण बच्चों को इसका ज्ञान देना पैरेट्स के लिए जरूरी हो गया। आमतौर पर अंग्रेजी के ट्यूशन पर काफी खर्चा आता है और इसके साथ ही बच्चों को घर से बाहर भी जाना पड़ता है, लेकिन अब कार्टून कैरेक्टर के जरिए बच्चे बिना किसी खर्च के घर बैठे अंग्रेजी सीख पाएंगे। इससे बच्चों और उनके पैरेट्स दोनों को काफी सहूलियत होगी।

कृत्रिम पत्नी बनाएगी बिजली

मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों के दल ने सिलिकॉन, इलेक्ट्रॉनिक्स, निकल और कोबाल्ट जैसे विभिन्न उत्प्रेरकों की सहायता से एक ऐसी कृत्रिम पत्नी का निर्माण किया है, जो सूरज की रोशनी और पानी से ऊर्जा पैदा करती है।
दरअसल, यह पत्नी सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके पानी को उसके घटकों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देती है, जिनका इस्तेमाल बिजली पैदा करने में किया जा सकता है। इन पत्तियों की सहायता से भारत जैसे विकासशील देश में एक घर की प्राथमिकता जरूरत भर की बिजली पैदा की जा सकती है।

जरूरत की बिजली

इस दल का लक्ष्य अब कम से कम कीमत वाला एक ऐसा उपकरण बनाने का है, जिसे कोई भी अपने घर की छत पर या आसपास लगाकर प्राथमिक जरूरत की बिजली प्राप्त कर सके। जापान में सुनामी आने के बाद जिस तरह परमाणु विकिरण फैला, उससे सभी देशों में परमाणु संयंत्रों के खतरे को लेकर चिख पृकार मची हुई है और जर्मनी जैसे देशों ने तो परमाणु संयंत्रों की स्थापना

को लेकर अपने कान पकड़ लिए हैं। इस पृष्ठभूमि में नई खोज एक वरदान की तरह सामने आई है।

खतरा भी ज्यादा

कोयले के भंडारों के कम होने और जल विद्युत के उत्पादन से होने वाले नुकसान, बल्कि पर्यावरणीय खतरे को ध्यान में रखते हुए दुनिया परमाणु ऊर्जा के विकल्प की ओर गई है, जो अपेक्षा स्वच्छ मानी जाती है, लेकिन इसका खतरा सभी तरह से ऊर्जा के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ऐसे में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे वैकल्पिक स्रोतों पर दुनिया भर में ध्यान दिया जा रहा है।

बदल जाएगी किस्मत

कृत्रिम पत्नी के जरिए इस तरह वैकल्पिक ऊर्जा तैयार करने से दुनिया की किस्मत बदल जाएगी और तेज गति से आर्थिक विकास कर रहे भारत और चीन को तो सुदूर बसे अपने गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से खास फायदा होगा। तब गांव-कस्बे के हर घर का अपना पावर-हाउस होगा। आकाश में बिजली के तड़कने से ही इतनी बिजली पैदा होती है कि दुनिया को उसका संरक्षण करना आ जाए तो वर्षों तक बिजली की कमी नहीं रहेगी।

